

ग्रन्थ-संख्या—५०

प्रकाशक तथा विक्रेता

भारती-भण्डार

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

सं० २००० वि०
मूल्य २।।)

मुद्रक—

कृष्णाराम मेहता
लीडर प्रेस, प्रयाग

आसुर

आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास को कथा को, रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, मन्वन्तर के अर्थात् मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गयी है। इसलिये वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रायः लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं। किन्तु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम-युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त संग्रहित किये थे, उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है; क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच-बीच में संबंध लगा हुआ-सा दीखता है। घटनाएँ कहीं अतिरंजित-सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य-संग्रहकारिणी तर्कबुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है किन्तु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से सम्बद्ध है ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है। परन्तु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारम्भ होती है ठीक उसी के पहिले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से, बीती हुई और भी पहिले की बातों का उल्लेख स्मृति-पट पर अमिट रहता है; परन्तु कुछ अतिरंजित-सा। वे घटनाएँ आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिये हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों

का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ता; जिससे कि उन अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामंजस्य किया जाय।

यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। तब भी उसके तिथि-क्रम-मात्र से संतुष्ट न होकर, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य हैं? आत्मा की अनुभूति! हाँ, उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बन कर प्रत्यक्ष होती है। फिर वे सत्य घटनाएँ स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म अनुभूति या भाव, चिरंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है।

जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मनु को देवों से विलक्षण, मानवों को एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। 'मनवे वै प्रातः' इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के आठवें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्वाध आत्मतुष्टि में अन्तिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणों को एक नये युग की सूचना मिली। इस मन्वन्तर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है "श्रद्धादेवो वै मनुः" (का० १ प्रा० १)। भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है।

"ततो मनुः श्रद्धदेवः संज्ञायामास भारत

श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान् स आत्मवान्।" (९—१—११)

छांदोग्य उपनिषद् में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। “यदा वै श्रद्धधाति अथ मनुते नाऽश्रद्धन् मनुते” यह कुछ निरुक्त की-सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, “कामगोत्रजा श्रद्धानामर्षिका”। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ-प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं। ‘मनुर्हवा अग्रे यज्ञेनेजे; यदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते’ (५—१ शतपथ)। इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत-सी बातें विखरी हुई मिलती हैं; किन्तु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के आठवें अध्याय से आरम्भ होता है; जिसमें उनको नाव के उत्तर गिरि हिमवान प्रदेश में पहुँचने का प्रसंग है। वहाँ ओष के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरवसर्पण कहते हैं। ‘अपीपरं वै त्वा, वृक्षे नावं प्रातिवध्नीष्व, तं तु त्वा मा गिरौ सन्त मुदक्रमन्तश्चेत्सीद् यावद् यावदुदकं समवायात्—तावत् तावदन्ववसर्पासि इति स ह तावत् ताव-देवान्ववससर्प तदप्येतदुत्तरस्य गिरे मनोरव-सर्पण मिति । (८—१)”

श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरम्भ करने का प्रयत्न हुआ। किन्तु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु-बलि की। “किलाताकुली—इति हासुर ब्रह्मावासतुः । तौ होचतुः—श्रद्धादेवो वै मनुः—आवं नु वेदावेति । तौ हागत्योचतुः—मनो । वाजयाव त्वेति ।”

इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी; उसने इड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। इड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्ण योषिता को देखकर मनु ने पूछा कि “तुम कौन हो ?” इड़ा ने कहा “तुम्हारी दुहिता हूँ”।

मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे ?” उसने कहा, “तुम्हारे दही, घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है।” “तां इ मनरुवाच— “का असि” इति । “तव दुहिता” इति । “अर्थं भगवति ? मम दुहिता” इति । (शतपथ ६ प्र० ३ ब्रा०) ।

इड़ा के लिये मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खिंचे । ऋग्वेद में इड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है । यह प्रजापति मनु की पथप्रदर्शिका मनुष्यों का शासन करने वाली कही गयी है । “इड़ा मङ्गलवन्मनुषस्य शासनीम्” १—३१—११ ऋग्वेद । इड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं । “सरस्वती साधयन्ती धियं न इड़ा देवी भारती विश्वमूर्तिः तिस्रो० देवीः स्वधया बर्हि रेदमन्च्छिद्रं पान्तु शरणं निषद्य ।” (ऋग्वेद २—३—८) “अनो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु । (ऋग्वेद १०—११०—८) इन मंत्रों में मध्यमा वैखरी और पश्यन्ती की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ इड़ा का नाम आया है । लौकिक संस्कृत में इड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात् बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है । “गो भू वात्रस्त्विडा इला ।” (अमर) इस इड़ा या वाक् के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ में उल्लेख मिलता है जिसमें दोनों अपने महत्व के लिये झगड़ते हैं । “अथातोमनसश्च” इत्यादि (४ अध्याय ५ ब्राह्मण) ऋग्वेद में इड़ा का धी, बुद्धि का साधन करने वाली; मनुष्य को चेतना प्रदान करनेवाला कहा है । पिछले काल में संभवतः इड़ा का पृथ्वी आदि से सम्बद्ध कर दिया गया हो, किन्तु ऋग्वेद ५—५—८ में इड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है । ‘इड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवोर्मयोभुवः’ से मालूम पड़ता है कि मही से इड़ा भिन्न है । इड़ा को मेघस वाहिनी नाड़ी भी कहा गया है ।

अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि इड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया । फिर तो इड़ा पर भी

अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना पड़ा। 'तद्वै देवानां आग आस' (७—४ शतपथ) इस अपराध के कारण उन्हें दण्ड भोगना पड़ा। 'तरुद्रोऽभ्यावत्य विव्याध' (७—४ शतपथ) इड़ा देवताओं को स्वसा थी। मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी। इसीलिये यज्ञों में इड़ा कर्म होता है। यह इड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में, अधिक सुख को खोज में, दुःख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात् मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। श्रद्धां हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु।" (ऋग्वेद १०—१५१—४) इन्हीं सब के आधार पर 'कामायनी' की कथा-सृष्टि हुई है। हाँ 'कामायनी' की कथाशृंखला मिलाने के लिये कहीं-कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार, मैं नहीं छोड़ सका हूँ।

चिन्ता

हिम गिरि के उत्तुंग शिखर पर --
वैठ शिला की शीतल छाँह,
एके पुरुष, भीगे नयनों से,
देख रहा था प्रलय प्रवाह !

नीचे जल था, ऊपर हिम था,
एक तरल था, एक सघन;
एके तत्व की ही प्रधानता ७६
कहो उसे जड़ या चेतन ।

दूर दूर तक विस्तृत था हिम
स्तब्ध उसी के हृदय समान;
नीरवता सी शिला चरण से
टकराता फिरता पवमान ।

तरुण तपस्वी-सा वह बैठा,
साधन करता सुर-शमशान;
नीचे प्रलय सिंधु लहरों का,
होता था सकरुण अवसान ।

उसी तपस्वी से लम्बे, थे
देवदारु दो चार खड़े;
हुए हिम - धवल, जैसे पत्थर
बन कर ठिठुरे रहे अड़े ।

अवयव की दृढ़ मांस-पेशियाँ,
 ऊर्जस्वित था वीर्य अपार;
 स्फूर्ति शिराओं, स्वस्थ रक्त का
 होता था जिनमें संचार ।

चिंता-कातर वदन हो रहा
 पौरुष जिसमें श्रोत प्रोत;
 उधर उपेक्षामेय यौवन का
 बहता भीतर मधुमय स्रोत ।

बँधी महा-वट से नौका थी
 - सूखे में अब पड़ी रही;
 उतर चला था वह जल-प्लावन,
 और निकलने लगी मही ।

निकल रही थी मर्म वेदना
 करुणा विकल कहानी सी;
 वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही,
 हँसती सी पहचानी सी ।

“ओ चिंता की पहली रेखा,
 अरी विश्व वन की व्याली;
 ज्वालामुखी स्फोट के भीषण,
 प्रथम कंप सी मतवाली !

हे अभाव की चपल बालिके,
 री ललाट की खल रेखा !
 हरी-भरी सी दौड़-धूप, ओ
 जल-माया की चल रेखा !

इस ग्रह कक्षा की हलचल !
 तरल गरल की लघु लहरी;
 जरा अमर जीवन की, और न
 कुछ सुनने वाली, बहरी !

अरी व्याधि की सूत्र-धारिणी !
 अरी आधि, मधुमय अभिशाप !
 हृदय-गगन में धूमकेतु सी,
 पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप ।

मनन करावेगी तू कितना ?
 अत जाति का जीव;
 अमर मरेगा क्या ? तू कितनी
 गहरी डाल रही है नींव ।

आह धिरेगी हृदय लहलहे
 खेतों पर करका-धन सी;
 छिपी रहेगी अंतरतम में
 सब के तू निगूढ़ धन सी ।

बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता
 तेरे हैं, कितने नाम !
 अरी पाप है, तू, जा, चल, जा
 यहाँ नहीं कुछ तेरा काम ।

विस्मृति आ, अवसाद घेर ले.
 नीरवते ! बस चुप कर दे;
 चेतनता चल जा, जड़ता से
 आज शून्य मेरा भर दे ।”

“चिंता करता हूँ मैं जितनी
 उस अतीत की, उस सुख की;
 उतनी ही अनंत में बनती
 जातीं रेखायें दुख की ।

आह सर्ग के अग्रदूत ! तुम
 असफल हुए, विलीन हुए;
 भक्त या रक्तक, जो समझो,
 केवल अपने मीन हुए ।

अरी आँधियो ! ओ बिजली की
 दिवा - रात्रि तेरा नर्तन,
 उसी वासना की उपासना,
 वह तेरा प्रत्यावर्तन ।

मणि-दीपों के अंधकार मय
 अरे निराशा पूर्ण भविष्य !
 देव-दम्भ के महा मेघ में
 सब कुछ ही बन गया हविष्य । स्ति

अरे अमरता के चमकोले
 पुतलो ! तेरे वे जय नाद;
 काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि
 बन कर मानो दीन विषाद ।

प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित
 हम सब थे भूले मद में;
 भोले थे, हाँ तिरते केवल
 सब विलासिता के नद में ।

वे सब डूबे; डूबा उनका
 विभव, बन गया पारावार;
 उमड़ रहा था देव सुखों पर
 दुःख जलधि का नाद अपार ।”

“वह उन्मत्त विलास हुआ क्या ?
 स्वप्न रहा या छलना थी !
 देव सृष्टि की सुख विभावरी
 ताराओं की कलना थी ।

चलते थे सुरभित अश्वल से
 जीवन के मधुमय निश्वास;
 कोलाहल में मुखरित होता
 देव जाति का सुख-विश्वास ।

सुख, केवल सुख का वह संग्रह,
 केंद्रीभूत हुआ इतना;
 छाया पथ में नव तुषार का
 सघन मिलन होता जितना ।

सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के
 बल, वैभव, आनंद अपार;
 उद्वेलित लहरों सा होता, उस
 समृद्धि का सुख-सञ्चार !

कीर्ति, दीप्ति, शोभा थी नचती
 अरुण किरणों से चारों ओर,
 सप्त सिंधु के तरल कणों में,
 द्रुम दल में आनंद-विभोर ।

शक्ति रही हाँ शक्ति; प्रकृति थी
 पद-तल में विनम्र विश्रांत;
 कँपती धरणी, उन चरणों से
 होकर प्रति दिन ही आक्रांत !

स्वयं देव थे हम सब, तो फिर
 क्यों न विश्रुंखल होती सृष्टि,
 अरे अचानक हुई इसी से
 कड़ी आपदाओं की वृष्टि ।

गया, सभी कुछ गया, मधुर तम
 सुर वालाओं का शृंगार;
 उषा ज्योत्स्ना सा यौवन-स्मित
 मधुप सदृश निश्चित विहार

भरी वासना-सरिता का वह
 कैसा था मदमत्त प्रवाह,
 प्रलय-जलधि में संगम जिसका
 देख हृदय था उठा कराह ।”

“चिर किशोर-वय, नित्य विलासी
 सुरभित जिससे रहा दिगंत;
 आज तिरोहित हुआ कहाँ वह
 मधु से पूर्ण अनंत वसंत ?

कुसुमित कुञ्जों में वे पुलकित
 प्रेमालिंगन हुए विलीन;
 मौन हुई हैं मूर्च्छित तानें
 और न सुन पड़ती अब बीन ।

अव न कपोलों पर छाया सी
 पड़ती मुख की सुरभित भाप;
 भुज मूलों में, शिथिल वसन की
 व्यस्त न होती है अब माप । ३६

कंकड़ कणित, रणित नूपुर थे,
 हिलते थे छाती पर हार;
 मुखरित था कलरव, गीतों में
 स्वर लय का होता अभिसार । ३७

सौरभ से दिगंत पूरित था,
 अंतरिक्ष आलोक - अधीर;
 सब में एक अचेतन गति थी,
 जिससे पिछड़ा रहे समोर ! ३८

वह अनंग पीड़ा अनुभव सा
 अंग भंगियों का नर्तन,
 मधुकर के मरंद - उत्सव सा
 मदिर भाव से आवर्तन । ३९

सुरा सुरभि मय वदन अरुण वे
 नयन भरे आलस अनुराग;
 कल कपोल था जहाँ बिछलता
 कल्पवृक्ष का पीत पराग । ४०

विकल वासना के प्रतिनिधि वे
 सब मुरभाये चले गये;
 आह ! जले अपनी ज्वाला से,
 फिर वे जल में गले, गये।" ४१

१५

“अरी उपेक्षा भरी अमरते !
 री अतृप्ति ! निर्वाध विलास !
 द्विधा-रहित अपलक नयनों की
 भूख भरी दर्शन की प्यास ! ४२

विछुड़े तेरे सब आलिंगन,
 पुलक स्पर्श का पता नहीं;
 मधुमय चुंबन कातरतायें
 आज न मुख को सता रहीं। ४३

रत्न सौध के वातायन, जिनमें
 आता मधु-मदिर समीर;
 टकराती होगी अब उनमें
 तिमिगिलों की भीड़ अधीर। ४४

देव-कामिनी के नयनों से
 जहाँ नील नलिनों की सृष्टि
 होती थी, अब वहाँ हो रही
 प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। ४५

वे अम्लान कुसुम सुरभित,
मणि-रचित मनोहर मालायें,
वनी शृङ्खला, जकड़ीं जिनमें
विलासिनी सुर बालायें । ४६

देव-यजन के पशु यज्ञों की
वह पूर्णाहुति की ज्वाला,
जलनिधि में वन जलती कैसी
आज लहरियों की माला ! ४७

उनको देख कौन रोया यों
अंतरिक्ष में बैठ अधीर !

व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय
यह प्रालेय हलाहल नीर ! ४८

हा-हा-कार हुआ क्रंदन मय
कठिन कुलिश होते थे चूर;

हुए दिगंत वधिर, भीषण रव
बार बार होता था क्रूर । ४९

दिग्दाहों से धूम उठे, या
जलधर उठे क्षितिज तट के !

सघन गगन में भीम प्रकंपन
भंक्ता के चलते झटके । ५०

अंधकार में मलिन मित्र की
 धुँधली आभा लीन हुई;
 वरुण व्यस्त थे, घना कालिमा
 स्तर-स्तर जमती ^{क्रेटा} पीन हुई; ४१

पंचभूत का भैरव मिश्रण, ^{दुवर्ती}
 शंपाओं के शकल - निपात,
 उल्का लेकर अमर शक्तियाँ
 खोज रहीं ज्यों खोया प्रात । ४२

बार बार उस भीषण रव से
 कँपती धरती देख विशेष,
 मानो नील व्योम उतरा हो
 आलिंगन के हेतु अशेष । ४३

अधर गरजती सिंधु लहरियाँ
 कुटिल काल के जालों सी; ✓
 बली आ रहीं फेन उगलती
 फन फैलाये व्यालों सी । ४४

सती धरा, धधकती ज्वाला,
 ज्वाला - मुखियों के निश्वास;
 प्रौर संकुचित क्रमशः उसके
 अवयव का होता था हास । ४५

सबल तरंगाघातों से, उस

क्रुद्ध सिंधु के, विचलित सी
व्यस्त महा कच्छप सी धरणी,

ऊभ - चूभ थी विकलित सी । ५६

बढ़ने लगा विलास वेग सा

वह अति भैरव जल संघात;
तरल तिमिर है प्रलय पवन का

होता आलिंगन प्रतिघात । ५७

वेला क्षण क्षण निकट आ रही

क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ;
उदधि डुवाकर अखिल धरा को

बस मर्यादा हीन हुआ । ५८

करका क्रंदन करती गिरती

और कुचलना था सब का;
पंचभूत का यह तांडव मय

नृत्य हो रहा था कब का । ५९

“एक नाव थी, और न उसमें

डाँड़े लगते, या पतवार;
तरल तरंगों में उठ गिर कर

वहती पगली वारम्बार ! ६०

लगते प्रबल धपेड़े, धुँधले
 तट का था कुछ पता नहीं;
 कातरता से भरी निराशा
 देख नियति पथ बनी वहीं । ६

लहरें व्योम चूमतीं उठतीं;
 चपलायें असंख्य नचतीं;
 गरल जलद की खड़ी झड़ी में
 धुँधें निज संसृति रचतीं । ६

चपलायें उस जलधि, विश्व में
 स्वयं चमत्कृत होते थीं;
 ज्यों विराट वाङ्मय ज्वालायें
 खंड-खंड हो रोती थीं । ६

जलनिधि के तल वासी जलचर
 विकल निकलते उतराते,
 हुआ विलोडित गृह, तब प्राणी
 कौन ! कहाँ ! कब ! सुख पाते ? ६

घनीभूत हो उठे पवन, फिर
 श्वासों की गति होती रुद्ध;
 और चेतना थी बिलखाती,
 दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध । ६

उस विराट आलोड़न में, प्रह ^{जि लगे ३३ पर ३३ ३३ ३३}
 तारा बुद-बुद से लगते ।

प्रखर प्रलय पावस में जगमग,
ज्योतिरिंगणों से जगते । ६६

प्रहर दिवस कितने बीते, अब
 इसको कौन बता सकता !
 इनके सूचक उपकरणों का,
 चिह्न न कोई पा सकता । ६७

काला शासन-चक्र मृत्यु का
 कब तक चला न स्मरण रहा,
 महा मत्स्य का एक चपेटा
 दीन पोत का मरण रहा । ६८

किन्तु उसी ने ला टकराया
 इस उत्तर-गिरि के शिर से,
देव सृष्टि का ध्वंस अचानक
 श्वास लगा लेने फिर से । ६९

/ आज अमरता का जीवित हूँ
 मैं वह भीषण जर्जर दम्भ,
 आह सर्ग के प्रथम अंक का
 अधम पात्र मय सा विष्कम्भ !” ७०

“ओ जीवन की मरु मरीचिका,
 कायरता के अलस विषाद
 अरे पुरातन अमृत ! अगतिमय
 मोहमुग्ध जर्जर अवसाद । ७१

मौन ! नाश ! विध्वंस ! अंधेरा !
 शून्य बना जो भ्रगट अभाव,
 वही सत्य है, अरी अमरते !
 तुझको यहाँ कहाँ अब ठाँव । ७२

२२
 मृत्यु, अरी चिर-निन्द्रे ! तेरा
 अंक हिमानी सा शीतल,
 तू अनंत में लहर बनाती
 काल-जलधि की सी हलचल ७३

महा-नृत्य का विषम सम, अरी
 अखिल स्पंदनों की तू माप,
 तेरी ही विभूति बनती है
 सृष्टि सदा होकर अभिशाप । ७४

३
 अंधकार के अट्टहास सी,
 मुखरित सतत चिरंतन सत्य,
 छिपी सृष्टि के कण-कण में तू,
 यह सुन्दर रहस्य है नित्य । ७५

जीवन तेरा क्षुद्र अंश है
 व्यक्त नील घन-माला में,
 सौदामिनी-संधि सा सुन्दर
 क्षण भर रहा उजाला में । ७६

पवन पी रहा था शब्दों को
 निर्जनता की उखड़ी साँस,
 टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि
 बनी हिम-शिलाओं के पास । ७७

धू धू करता नाच रहा था
 अनस्तित्व का तांडव नृत्य;
 आकर्षण विहीन विद्युत्क्षण
 बने भारवाही थे मृत्यु । ७८

मृत्यु सदृश शीतल निराश ही
 आलिंगन पाती थी दृष्टि;
 परम व्योम से भौतिक कण सी
 बने कुहासों की थी वृष्टि । ७९

वाष्प बना उजड़ा जाता था
 या वह भीषण जल-संघात,
 सौर चक्र में आवर्तन था
 प्रलय निशा का होता प्रात ! ८०

आशा ✓

उपा सुनहले तीर बरसती
जय - लक्ष्मी सी उदित हुई;
उधर पराजित काल रात्रि भी
जल में अंतर्निहित हुई ।

वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का
आज लगा हँसने फिर से;
वर्षा वीती, हुआ सृष्टि में
शरद विकास नये सिर से ।

नव कोमल आलोक विखरता
हिम संसृति पर भर अनुराग;
सित सरोज पर क्रीड़ा करता
जैसे मधुमय पिंग पराग ।

धीरे धीरे हिम - आच्छादन
हटने लगा धरातल से;
जर्गी वनस्पतियाँ अलसाईं
मुख धोती शीतल जल से ।

नेत्र निमोलन करती मानो
प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने;

जलधि लहरियों की अँगड़ाई
वार वार जाती सोने ।

सिंधु सेज पर धरा बधू अब
तनिक संकुचित वैठी सी;
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में
मान किये सी ऐंठी सी ।

देखा मनु ने वह अति रंजित
विजन विश्व का नव एकांत;
जैसे कोलाहल सोया हो
हिम शीतल जड़ता सा श्रांत ।

इंद्रनील मणि महा चषक था
सोम रहित उलटा लटका;
आज पवन मृदु साँस ले रहा
जैसे वीत गया खर्क की ।

वह विराट था हेम धोलता
नया रंग भरने को आज;
कौन ? हुआ यह प्रश्न अचानक
और कुतूहल का था राज ।

‘विश्वदेव, सविता या पूषा
 सोम, मरुत, चंचल पवमान;
 वरुण आदि सब घूम रहे हैं
 किसके शासन में अम्लान ?

किसका था भ्र-भंग प्रलय सा
 जिसमें ये सब विकल रहे;
 अरे ! प्रकृति के शक्ति-चिह्न ये
 फिर भी कितने निबल रहे ।

विकल हुआ सा काँप रहा था,
 सकल भूत चेतन समुदाय;
 उनकी कैसी बुरी दशा थी
 वे थे विवश और निरुपाय ।

देव न थे हम और न ये हैं,
 सब परिवर्तन के पुतले;
 हाँ, किं गर्व-रथ तुरंग सा;
 जितना जो चाहे जुत ले ।

“महा नील इस परम व्योम में,
 अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान,
 ग्रह, नक्षत्र और विद्यत्कण
 किसका करते से संधान !

छिप जाते हैं और निकलते

आकर्षण में खिंचे हुए;

तृण वोरुध लहलहे हो रहे

किसके रस से सिंचे हुए ?

सिर नीचा कर किसकी सत्ता

सब करते स्वीकार यहाँ;

सदा मौन हो प्रवचन करते

जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ?

हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ?

यह मैं कैसे कह सकता

कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो

भार विचार न सह सकता ।

हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम

कुछ हो ऐसा होता भान"—

मंद गंभीर धीर स्वर संयुत

यही कह रहा सागर गान ।

“यह क्या मधुर स्वप्न सी क्लिप्तमिल

सदय हृदय में अधिक अधीर;

व्याकुलता सी व्यक्त हो रही

आशा बनकर प्राण समीर !

यह कितनी स्पृहणीय वन गई

मधुर जागरण सी छविमान;
स्मिति की लहरों सी उठती है

नाच रही ज्यों मधु मय तान ।

जोवन ! जीवन की पुकार है

खेल रहा है शीतल दाह;
किसके चरणों में नत होता

नव प्रभात का शुभ उत्साह ।

मैं हूँ, यह वरदान, सदृश क्यों

लगा गूँजने कानों में !

मैं भी कहने लगा, 'मैं रहूँ'

शाश्वत नभ के गानों में ।

यह संकेत कर रही सत्ता

किसकी सरल विकास-मयी ।

जीवन की लालसा आज क्यों

इतनी प्रखर विलास-मयी ?

तो फिर क्या मैं जिऊँ और भी,—

जीकर क्या करना होगा ?

देव ! बता दो, अमर वेदना

लेकर कब मरना होगा ?”

एक यवनिका हटो, पवन से
 प्रेरित माया पट जैसी;
 और आवरण-मुक्त प्रकृति थी
 हरी भरी फिर भी वैसी ।

स्वर्ण शालियों को कलमें थीं
 दूर दूर तक फैल रही;
 शरद इंदिरा के मंदिर को
 मानो कोई गैल रही ।

विश्व-कल्पना-सा ऊँचा वह
सुख शीतल संतोष निदान;
 और डूबती सी अचला का
 अवलंबन मणि रत्न निधान ।

अचल हिमालय का शोभनतम
 लता कलित शुचि सानु शरीर,
 निद्रा में सुख स्वप्न देखता
 जैसे पुलकित हुआ अधोर ।

उमड़ रही जिसके चरणों में
 नीरवता की विमल विभूति,
 शीतल भरनों की धारायें
 विखरतीं जीवन अनुभूति ।

उस असीम नीले अंचल में
 देख किसी की मृदु मुसक्यान,
 मानो हँसी हिमालय को है
 फूट चली वरतो कल गान ।

शिला-संधियों में टकरा कर
 पवन भर रहा था गुंजार,
 उस दुर्भेद्य अचल दृढ़ता का
 करता त्वारण सदृश प्रचार ।

संध्या-घनमाला को सुंदर
 ओढ़े रंग विरंगी छींट,
 गगन चुंबिनी शैल-श्रेणियाँ
 पहने हुए तुषार किरोट ।

विश्व मौन, गौरव, महत्व को
 प्रतिनिधियों सी भरी विभा;
 इस अनंत प्रांगण में मानो
 जोड़ रही हैं मौन सभा ।

वह अनंत नोलिमा व्योम की
 जड़ता सी जो शांत रही,
 दूर-दूर ऊँचे से ऊँचे
 निज अभाव में भ्रांत रही ।

उसे दिखतीं जगती का सुख,
 हँसी, और उल्लास अजान,
 मानो तुंग तरंग विश्व को
 हिमगिरि की वह सुढर उठान ।

थी अनंत की गोद सदृश जां
 विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय;
 उसमें मनु ने स्थान बनाया
 संदर स्वच्छ और वरणीय ।

पहला संचित अग्नि जल रहा
 पास मंलिन द्युति रवि कर से;
 शक्ति और जागरण चिह्न-सा
 लगा धधकने अब फिर से ।

जलने लगा निरंतर उनका
 अग्निहोत्र सागर के तोर;
 मनु ने तप में जीवन अपना
 किया समर्पण हो कर धीर ।

सजग हुई फिर से सुर संस्कृति,
 देव यजन की वर माया
 उन पर लगी डालने अपनी
 कर्ममयी शीतल छाया ।

उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है
 क्षितिज बीच अरुणोदय कांत;
 लगे देखने लुब्ध नयन से
 प्रकृति विभूति मनोहर शांत ।

पाक यज्ञ करना निश्चित कर
 लगे शालियों को चुनने;
 उधर वहि ज्वाला भी अपना
 लगी धूम पट थी चुनने ।

शुष्क डालियों से वृत्तों की
 अग्नि अर्चियाँ हुईं समिद्ध;
 आहुति की नवधूम गंध से
 नभ कानन हो गया समृद्ध ।

और सोच कर अपने मन में,
 जैसे हम हैं बचे हुए;
 क्या आश्चर्य्य और कोई हो
 जीवन लीला रचे हुए ।

अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ
 कहीं दूर रख आते थे;
 होगा इससे तृप्त अपरिचित
 समझ सहज सुख पाते थे ।

दुख का गहन पाठ पढ़ कर अब
 सहानुभूति समझते थे;
 नीरवता की गहराई में
 मग्न अकेले रहते थे ।

मनन किया करते थे बैठे
 ज्वलित अग्नि के पास वहाँ;
 एक सजीव तपस्या जैसे
 पतझड़ में कर वास रहा ।

फिर भी धड़कन कभी हृदय में
 होती, चिंता कभी नवीन;
 यों ही लगा बीतने उनका
 जीवन अस्थिर दिन-दिन दोन ।

प्रश्न उपस्थित नित्य नये थे
 अंधकार की माया में;
 रंग बदलते जो पल-पल में
 उस विराट की छाया में ।

अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते
 प्रकृति सकर्मक रही समस्त;
 निज अस्तित्व बना रखने में
 जीवन आज हुआ था व्यस्त ।

तप में निरत हुए मनु, नियमित—

कर्म लगे अपना करने ।

विश्व रंग में कर्मजाल के

सूत्र लगे घन हो धिरने ॥५

उस एकांत नियति शासन में

चले विवश धीरे धीरे;

एक शांत स्पंदन लहरों का

होता ज्यों सागर तीरे ।

विजन जगत की तंद्रा में

तब चलता था सूना सपना;

ग्रह पथ के आलोक वृत्त से

काल जाल तनता अपना ।

प्रहर दिवस रजनी आती थी

चल जाती संदेश-विहीन;

एक विराग-पूर्ण संसृति में ३२२२

ज्यों निष्फल आरंभ नवीन ।

धवल मनोहर चंद्र बिम्ब से

अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ;

जिसमें शीतल पवन गा रहा

पुलकित हो पावन उद्गीथ ।

नीचे दूर दूर विस्तृत था

उर्मिल सागर व्यथित अधीर;
अंतरिक्ष में वेगस्त उसी सा

रहा चंद्रिका-निधि गंभीर ।

खुली उसी रमणीय दृश्य में

अलस चेतना की आँखें;

हृदय कुसुम की खिलीं अचानक

मधु से वे भीगी पाँखें

व्यक्त नील में चल प्रकाश का

कंपन सुख वन वजता था;

एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का

मधुर रहस्य उलभता था ।

नव हो जगी अनादि वासना

मधुर प्राकृतिक भूख समान;

चिर परिचित सा चाह रहा था

द्वंद्व सुखद करके अनुमान ।

दिवा रात्रि या—मित्र वरुण की

वाला का अक्षय शृङ्गार;

मिलन लगा हँसने जीवन के

उर्मिल सागर के उस पार ।

तप से संयम का संचित बल
 तृपित और व्याकुल था आज;
 अट्टहास कर उठा रिक्त का
 यह अधीर तम, सूना राज ।
 धीर समीर परस से पुलकित
 विकल हो चला ! श्रांत शरीर;
 आशा की उलझी अलकों से
 उठी लहर मधुगन्ध अधीर ।
 मनु का मन था विकल हो उठा
 संवेदन से खा कर चोट;
 संवेदन ! जीवन जगती को
 जो कटुता से देता घोंट ।

“आह ! कल्पना का सुन्दर यह
 जगत मधुर कितना होता !
 सुख स्वप्नों का दल छाया में
 पुलकित हो जगता-सोता ।
 संवेदन का और हृदय का
 यह संघर्ष न हो सकता;
 फिर अभाव असफलताओं की
 गाथा कौन कहाँ बकता !

कब तक और अकेले ? कहा दो
 हे मेरे जीवन बालों ?
 किस सुनाऊँ कथा ? कहा मन,
 अपना निधि न व्यर्थ खोलो !

“तम के सुंदरतम रहस्य, हे
 कांति किरण रंजित तारा !
 व्यथित विश्व के सात्विक शोतल
 विंदु, भरे नव रस तारा ।

आतप तापित जीवन सुख की
 शांतिमयी छाया के देश,
 हे अनंत को गणना, देते
 तुम कितना मधुमय संदेश !

आह शून्यते ! चुप होने में
 तू क्यों इतनी चतुर हुई;
 इंद्रजाल जननी ! रजनी तू
 क्यों अब इतनी मधुर हुई ?

मानवतीगरी

“जब कामना सिंधु तट आई
 ले संख्या का तारा दीप,
 फाड़ सुनहली साड़ी उसकी
 तू हँसती क्यों अरी प्रतीप ?

इस अनंत काले शासन का
 वह जब उच्छ्वल इतिहास,
 आँसू औ' तम घोल लिख रही
 तू सहसा करती मृदुहास ।

विश्व कमल की मृदुल मधुकरी
 रजनो तू किस कोने से—
 आती चूम-चूम चल जाती
 पढ़ी हुई किस टोने से ।

किस दिगंत रेखा में इतनी
 संचित कर सिसकी सी साँस,
 यों समीर मिस हाँफ रही सी
 चली जा रही किसके पास ।

विकल खिलखिलाती है क्यों तू ?
 इतनी हँसी न व्यर्थ बिखेर;
 तुहिन कणों, फेनिल लहरों में,
 मच जावेगी फिर अंधेर ।

धूँधट उठा देख मुसक्याती
 किसे ठिठकती सी आती;
 विजन गगन में किसी भूल सी
 किसको स्मृति पथ में लाती ।

एक भिटका सा लगा सहर्ष

निरखने लग लुटे से, कीन---

गा रहा यह सुन्दर संगीत ?

कुतूहल रह न सका फिर मौन ।

और देखा वह सुन्दर दृश्य

नयन का इंद्रजाल अभिराम;

कुसुम-वैभव में लता समान

चंद्रिका से लिपटा घनश्याम ।

हृदय की अनुकृति बाह्य उदार ^{विशाल}

एक लंबी काया, उन्मुक्त;

मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल

सुशोभित हो सौरभ संयुक्त ।

मसृण गांधार देश के, नील ^{रंग}

रोम वाले मेपों के चर्म,

ढँक रहे थे उसका वपु कांत

बन रहा था वह कोमल वर्म ।

नील परिधान बीच सुकुमार ^{अधस्फुरित}

खुल रहा मृदुल अधखुला अंग;

{ खिला हो ज्यों बिजली का फूल

मेघ-वन बीच गुलाबी रंग ।

आह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योम—

बीच जब घिरते हों घनश्याम;
अरुण रवि मंडल उनको भेद
दिखाई देता तो छविधाम ।

या कि, नव इंद्र नील लघु शृंग
फोड़ कर धधक रही हा कांतः
एक लघु ज्वालामुखी अचेत
माधवी रजनी में अश्रांत ।

घिर रहे थे घुँघराले वाल
अंस अवलंबित मुख के पास
नील घन-शावक से सुकुमार
सुधा भरने को विधु के पास ।

और उस मुख पर वह मुसक्यान !
रक्त किसलय पर ले विश्राम
अरुण की एक किरण अम्लान
अधिक अलसाई हो अभिराम ।

नित्य यौवन छवि से ही दीप्त
विश्व की करुण कामना मूर्ति;
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति ।

उषा की पहिली लेखा कांत,
 माधुरी से भांगों भर मोद;
 मद भरी जैसे उठे सलज्ज
 शोर की तारक द्युति की गोद ।

कुसुम कानन-अंचन में मंद
 पवन प्रेरित सौरभ साकार,
 रचित परमाणु पराग शरीर
 खड़ा हो ले मधु का आधार ।

और पड़ती हो उस पर शुभ्र
 नवल मधु-राका मन की साध;
 हँसी का मद विह्वल प्रतिविम्ब

मधुरिमा खेला सदृश अत्राध !
 व्रीडा

कहा मनु ने, "नभ धरणी वीच
 बना जीवन रहस्य निरुपाय;
 एक उत्का सा जलता भ्रांत,
 शून्य में फिरता हूँ असहाय ।

शैल निर्भर न बना, हतभाग्य
 गल नहीं सका जो कि हिम खंड;
 दौड़ कर मिलान जलनिधि अंक
 आह -वैसाही हूँ पाषंड ।

पहेली सा जीवन है व्यस्त
 उसे सुलभाने का अभिमान,
 वताता है विस्मृति का मार्ग
 चल रहा हूँ वन कर अनजान ।

भूलता ही जाता दिन रात
 सजल अभिलाषा कलित अतीत;
 बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य,
 दीन जीवन का यह संगीत ।

क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रान्त ?
 विवर में नील गगन के आज
 वायु की भटकी एक तरंग,
 शून्यता का उजड़ा सा राज ।

एक विस्मृति का स्तूप अचेत,
 ज्योति का धुँधला सा प्रतिबिम्ब;
 और जड़ता की जीवन राशि
 सफलता का संकलित विलम्ब ।

कौन हो, तुम वसंत के दूत
 विरस पतझड़ में अति सुकुमार !
 घन तिमिर में चपला की रेख
 तपन में शीतल मन्द वयार ।

नखत की आशा किरण समान,
 हृदय के कोमल कवि की कांत—
 कल्पना की लघु लहरी दिव्य
 कर रही मानस हलचल शांत !”

लगा कहने आगंतुक व्यक्ति,
 मिटाता उत्कंठा सविशेष;
 दे रहा हो कोकिल सानंद—
 सुमन को ज्यों मधुमय संदेशः—

“भरा था मन में नव उत्साह
 सीख लूँ ललित कला का ज्ञान
 इधर रह गंधर्वों के देश
 पिता की हूँ प्यारी संतान ।

धूमने का मेरा अभ्यास,
 बढ़ा था मुक्त व्योम-तल नित्य;
 कुतूहल खोज रहा था व्यस्त
 हृदय सत्ता का सुन्दर सत्य ।

दृष्टि जब जाती हिम-गिरि और
 प्रश्न करता मन अधिक अधीर,
 धरा की यह सिकुड़न भयभीत
 आह कैसी है ? क्या है पीर ?

मधुरिमा में अपनी ही मौन,
 एक सोया संदेश महान,
 सजग हो करता था संकेत;
 चेतना मचल उठी अनजान ।

बड़ा मन और चले ये पैर,
 शैल मालाओं का शृंगार;
 आँख की भूख मिटी यह देख
 आह कितना सुन्दर सम्भार !

एक दिन सहसा सिंधु अपार
 लगा टंकराने नग तल क्षुब्ध;
 अकेला यह जीवन निरुपाय
 आज तक घूम रहा विश्रब्ध ।

यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न
 भूत-हित-रत किसका यह दान !
 इधर कोई है अभी सजीव
 हुआ ऐसा मन में अनुमान ।

तपस्वी ! क्यों इतने हो क्लान्त ?
 वेदना का यह कैसा वेग ?
 आह ! तुम कितने अधिक हताश
 वताओ यह कैसा उद्वेग !

हृदय में क्या है नहीं अधीर,
 लालसा जीवन को निश्शेष ?
 कर रहा वंचित कहीं न त्याग
 तुम्हें, मन में धर सुन्दर वेश !

दुःख के डर से तुम अज्ञात
 जटिलताओं का कर अनुमान,
 काम से भिन्नक रहे हो आज,
 भविष्यत् से बन कर अनजान ।

कर रही लीलामय आनन्द,
 महा चिति सजग हुई सी व्यक्त,
 विश्व का उन्मीलन अभिराम
 इसी में सब होते अनुरक्त ।

काम मंगल से मंडित श्रेय
 सर्ग, इच्छा का है परिणाम;
 तिरस्कृत कर उसको तुम भूल
 वनाते हो असफल भवधाम ।

“दुःख की पिछली रजनी बीच
 विकसता सुख का नवल प्रभात;
 एक परदा यह भीना नील
 छिपाये है जिसमें सुख गात ।

जिसे तुम समझे हो अभिशाप,
 जगत की ज्वालाओं का मूल;
 ईश का वह रहस्य वरदान
 कभी मत इसका जाओ मूल;
 विषमता की पीड़ा से व्यस्त
 हो रहा स्पंदित विश्व महान;
 यही दुख सुख विकास का सत्य
 यही भूषण का मधुमय दान।
 नित्य समरसता का अभिकार,
 उमड़ता कारण जलधि समान;
 व्यथा से नीली लहरों बीच
 बिखरते सुख मणि गण द्युतिमान ?

कहा आगंतुक ने सस्नेह :—

“अरे तुम इतने हुए अधीर !

हार बैठे जीवन का दाँव,

जीतते मर कर जिसको वीर ।

तप नहीं केवल जीवन सत्य

करुण यह क्षणिक दीन अवसाद;

तरल आकांक्षा से है भरा

सो रहा आशा का आह्लाद ।

प्रकृति के यौवन का शृंगार

करेंगे कभी न वासी फूल;

मिलेंगे वे जा कर अति शीघ्र

आह उत्सुक हैं उनकी धूल ।

पुरातनता का यह निर्मोक

सहन करती न प्रकृति पल एक;

नित्य नूतनता का आनंद

किये है परिवर्तन में टेक ।

युगों की चट्टानों पर सृष्टि

डाल पद-चिह्न चली गंभीर;

देव, गंधर्व, असुर की पंक्ति

अनुसरण करती उसे अधीर ।

“एक तुम, यह विस्तृत भू खंड
 प्रकृति वैभव से भरा अमंद;
 कर्म का भोग, भोग का कर्म
 यही जड़ का चेतन आनंद ।

अकेले तुम कैसे असहाय
 यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ?
 तपस्वी ! आकर्षण से हीन
 कर सके नहीं आत्म विस्तार ।

दब रहे हो अपने ही बोझ
 खोजते भी न कहीं अवलंब;
 तुम्हारा सहचर बन कर क्या न
 उन्नत होऊँ मैं बिना विलम्ब ?

समर्पण लो सेवा का सार
 सजल संसृति का यह पतवार,
 आज से यह जीवन उत्सर्ग
 इसी पद तल में विगत विकार ।

दया, माया, ममता लो आज,
 मधुरिमा लो, अगाध विश्वास;
 हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ
 तुम्हारे लिये खुला है पास ।

बनो संसृति के मूल रहस्य
 तुम्हीं से फैलेगी वह बेल;
 विश्व भर सौरभ से भर जाय
 सुमन के खेलो सुन्दर खेल ।

“और यह क्या तुम सुनते नहीं
 विधाता का मंगल वरदान—
 “शक्तिशाली हो, विजयी बनो”
 विश्व में गूँज रहा जय गान ।

“डरो मत अरे अमृत संतान
 अग्रसर है संगल मय वृद्धि;
 पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र
 खिंची आवेगी सकल समृद्धि ।

देव-असफलताओं का ध्वंस
 प्रचुर उपकरण जुटा कर आज;
 पड़ा है वन मानव संपत्ति
 पूर्ण हो मन का चेतन राज ।

चेतना का सुन्दर इतिहास
 अखिल मानव भावों का सत्य;
 विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य
 अक्षरों से अंकित हो नित्य ।

विधाता की कल्याणी सृष्टि
 सफल हो इस भूतल पर पूर्ण;
 पटें सागर, बिखरे ग्रह-पुंज
 और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण ।

उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प
 कुचलती रहे खड़ी सानंद;
 आज से मानवता की कीर्ति
 अनिल, भू, जल में रहे न बंद ।

जलधि के फूटें कितने उत्स
 द्वीप, कच्छप डूबें-उतराँय;
 किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति
 अभ्युदय का कर रही उपाय ।

विश्व की दुर्बलता बल बने,
 पराजय का बढ़ता व्यापार
 हँसाता रहे उसे सविलास
 शक्ति का क्रीड़ा मय संचार ।

शक्ति के विद्युत्कण, जो व्यस्त
 विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय;
 समन्वय उसका करे समस्त
 विजयिनी मानवता हो जाय ।”

कास

“मधु मय वसंत जीवन वन के,
वह अंतरिक्ष की लहरों में;
कब आये थे तुम चुपके से
रजनी के पिछले पहरो में !

क्या तुम्हें देख कर आते यों,
मतवाली कोयल बोली थी !
उस नीरवता में अलसाई
कलियों ने आँखें खोली थीं !

जब लीला से तुम सीख गहे
कोरक कोने में लुक रहना;
तब शिथिल सुरभि से धरणी में
बिछलन न हुई थी ? सच कहना ।

जब लिखते थे तुम सरस हँसी
अपनी, फूलों के अंचल में;
अपना कलकंठ मिलाते थे
भरनों के कोमल कल कल में ।

निश्चित आह ! वह था कितना
उल्लास, काकली के स्वर में !
आनंद प्रतिध्वनि गुँज रही
जीवन दिगंत के अंबर में ।

शिशु चित्रकार चंचलता में
 कितनी आशा चित्रित करते !
 अस्पष्ट एक लिपि ज्योति मयी
 जीवन की आँखों में भरते ।

लतिका घूँघट से चितवन की
 वह कुसुम दुग्ध सी मधु धारा,
 प्लावित करती मन अजिर रही,
 था तुच्छ विश्व वैभव सारा ।

वे फूल और वह हँसी रही
 वह सौरभ, वह निश्वास छना;
 वह कलरव, वह संगीत अरे
 वह कोलाहल एकांत बना !”

कहते कहते कुछ सोच रहे
 लेकर निश्वास निराशा की;
 मनु अपने मन की वात, रुकी
 फिर भी न प्रगति अभिलाषा की ।

“ओ नील आवरण जगती के
 दुर्बोध न तू ही है इतना;
 अवगुंठन होता आँखों का
 आलोक रूप बनता जितना ।

चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा

व्याकुल तू क्यों देता फेरी ?
तारों के फूल विखरते हैं
लुटती है असफलता तेरी ।

T

नव नील कुञ्ज हैं भीम रहे,
तरे कुसुमों की कथा न बंद हुई;
है अंतरिक्ष आमोद भरा
हिम करणिका ही मकरंद हुई ।

इस इंदीवर से गंध भरो
बुनती जाली मधु की धारा;
मन-मधुकर की अनुराग मयी
बन रही मोहनी सी कारा ।

अणुओं को है विश्राम कहाँ
यह कृति मय वेग भरा कितना;
अविराम नाचता कंपन है,
उल्लास सजीव हुआ कितना !

उन नृत्य शिथिल निश्वासों की,
कितनी है मोह मयी माया,
जिन से समीर छनता छनता
बनता है प्राणों की छाया ।

आकाश-रंध्र है पूरित से
 यह सृष्टि गहन सी होती है;
 आलोक सभी मूर्च्छित सोते,
 यह आँख थकी सी रोती है

सौंदर्य मयी चंचल कृतियाँ
 वन कर रहस्य हैं नाच रहीं;
 मेरी आँखों को रोक वहीं
 आगे बढ़ने में जाँच रहीं ।

मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी,
 वह सब क्या छाया उलभन है ?
 सुन्दरता के इस परदे में
 क्या अन्य धरा कोई धन है ?

मेरी अक्षय निधि ! तुम क्या हो,
 पहचान सकूँगा क्या न तुम्हें ?
 उलभन प्राणों के धागों की
 सुलभन का समझूँ मान तुम्हें ।

माधवी निशा की अलसाई
 अलकों में लुकते तारा सी;
 क्या हो सूने मरु-अंचल में
 अंतः सलिला की धारा सी !

श्रुतियों में चुपके चुपके से
 कोई मधु धारा घोल रहा;
 इस नीरवता के परदे में
 जैसे कोई कुछ बोल रहा।

है स्पर्श मलय के भिनमिल सा
 संज्ञा को और सुलाता है;
 पुलकित हो आँखें बन्द किये
 तंद्रा को पास बुलाता है।

ब्रीड़ा है यह चंचल कितनी
 विभ्रम से घूँघट खींच रही;
 छिपने पर स्वयं मृदुल कर से
 ज्यों मेरी आँखें मींच रही!

उद्बुद्ध चित्तिज की श्याम छटा
 इस उदित शुक्र की छाया में;
 ऊषा सा कौन रहस्य लिये
 सोती किरनों की काया में!

उठती हैं किरनों के ऊपर
 कोमल किसलय की छाजन सी;
 स्वर का मधु निस्वन रंधों में
 जैसे कुछ दूर बजे वंसी।

सब कहते हैं 'खोलो खोलो ✓
छवि देखूँगा जीवन-धन की',
आवरण स्वयं वनते जाते
है भीड़ लग रही दर्शन की।

चाँदनी सदृश खुल जाय कहीं
अवगुंठन आज सँवरता सा;
जिसमें अनंत कल्लोल भरा
लहरों में मस्त विचरता सा—

अपना फेनिल फन पटक रहा
मणियों का जाल लुटाता सा;
अन्निद्र दिखाई देता हो
उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा।”

“जो कुछ हो, मैं न सम्हालूँगा *तितरन्ती नहीं मस्त*

इस मधुर भार को जीवन के;
आने दो कितनी आती हैं
वाधायें दम संयम, वन के।

नक्षत्रो, तुम क्या देखोगे
इस ऊषा की लाली क्या है ?
संकल्प भर रहा है उनमें
संदेहों की जाली क्या है ?

कौशल यह कोमल कितना है
 सुषमा दुर्भेद्य बनेगी क्या ?
 चेतना इंद्रियों की मेरी
 मेरी ही हार बनेगी क्या ?”

“पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ
 यह स्पर्श, रूप, रस, गंध भरा;
 मधु लहरों के टकराने से
 ध्वनि में है क्या गुंजार भरा ।

तारा बन कर यह बिखर रहा
 क्यों स्वप्नों का उन्माद अरे !
 मादकता माती नींद लिये
 सोऊँ मन में अवसाद भरे ।”

चेतना शिथिल सी होती है
 उन अंधकार की लहरों में;
 मनु डूब चले धीरे-धीरे
 रजनी के पिछले पहरोँ में ।

उस दूर क्षितिज में सृष्टि बनी
 स्मृतियों की संचित छाया से;
 इस मन को है विश्राम कहाँ
 चंचल यह अपनी माया से

जागरण लोक था भूल चला -
 स्वप्नों का सुख संचार हुआ;
 कौतुक सा बन मनु के मन का
 वह सुन्दर क्रीड़ागार हुआ ।
 था व्यक्ति सोचता आलस में
 चेतना सजग रहती दुहरो;
 कानों के कान खोल कर के
 सुनती थी कोई ध्वनि गहरी ।

“प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा ^{वास्तव में} ~~आकार~~
 संतुष्ट ओष से मैं न हुआ;
 आया फिर भी वह चला गया
 वृष्णा को तनिक न चैन हुआ । ✓

देवों की सृष्टि विलीन हुई
 अनुशीलन में अनुदिन मेरे;
 मेरा अतिचार न बंद हुआ
 उन्मत्त रहा सबको घेरे । ✓

मेरी उपासना करते वे
 मेरा संकेत विधान बना;
 विस्तृत जो मोह रहा मेरा
 वह देव विलास वितान तना ।

मैं काम रहा सहचर उनका
 उनके विनोद का साधन था;
 हँसता था और हँसाता था
 उनका मैं कृतिमय जीवन था ।

जो आकर्षण वन हँसती थी
 रति थी अनादि वासना वही;
 अव्यक्त प्रकृति उन्मीलन के
 अंतर में उसको चाह रही ।

हम दोनों का अस्तित्व रहा ~~व्यक्त~~
 उस आरम्भिक आवर्तन सा;
 जिससे संसृति का बनता है
 आकार रूप के नर्तन सा ।

उस प्रकृति लता के यौवन में
रतिपुत्री उस पुष्पवती के माधव का;
 मध हास हुआ था वह पहला
 दो रूप मधुर जो ढाल सका ।

“वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई
 अपने आलस का त्याग किये;
 परमाणु बाल सब दौड़ पड़े
 जिसका सुन्दर अनुराग लिये ।

कुंकुम का चूर्ण उड़ाते से
 मिलने को गले ललकते से;
 अंतरिक्ष के मधु उत्सव के
 विद्युत्करण मिले झलकते से ।

वह आकर्षण, वह मिलन हुआ
 प्रारम्भ माधुरी छाया में;
 जिसको कहते सब सृष्टि, वनी
 मतवाली अपनी माया में ।

प्रत्येक नाश विश्लेषण भी
 संश्लिष्ट हुये, बन सृष्टि रही;
 ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था,
 मादक सरंदू की वृष्टि रही ।

मुज-लता पड़ी सरिताओं की ✓
 शैलों के गले सनाथ हुये;
 जलनिधि का अंचल व्यजन बना
 धरणी का, दो दो साथ हुये ।

कोरक अंकुर सा जन्म रहा,
 हम दोनों साथी भूल चले;
 उस नवल सर्ग के कानन में
 मृदु मलयानिल से फूल चले ।

हम भूख प्यास से जाग उठे,
 आकांक्षा-तृप्ति समन्वय में;
 रति-काम बने उस रचना में
 'देवजाति' जो रही नित्य यौवन वय में ।”

“सुर वालाओं की सखी रही
 उनकी हृत्तंत्री की लय थी;
 रति, उनके मन को सुलभाती
 वह राग भरी थी, मधुमय थी ।”

मैं तृष्णा था विकसित करता,
 वह तृप्ति दिखाती थी उनको;
 आनंद-समन्वय होता था
 हम ले चलते पथ पर उनको ।

वे अमर रहे न विनोद रहा,
 चेतनता रही, अनंग हुआ;
 भटक रहा अस्तित्व लिये
 संचित का सरल प्रसंग हुआ ।”

“यह नीड़ मनोहर कृतियों का
 यह विश्व कर्म रंगस्थल है;
 है परंपरा लग रही यहाँ
 ठहरा जिसमें जितना बल है ।

वे कितने ऐसे होते हैं
 जो केवल साधन बनते हैं;
 आरम्भ और परिणामों के
 संबंध सूत्र से बुनते हैं।

ऊषा की सजल गुलाली जो
 घुलती है नीले अंबर में;
 वह क्या है ? क्या तुम देख रहे
 वर्षों के मेघाडंबर में

अंतर है दिन और रजनी का
 यह साधक कर्म बिखरता है;
 माया के नीले अंचल में
 आलोक बिंदु सा भरता है।”

“आरंभिक वात्या उद्गम में
 अब प्रगति बन रहा संसृति का;
 मानव की शीतल छाया में
 ऋण शोध करूँगा निज कृति का।
 दोनों का समुचित प्रतिवर्तन पारस्परिक ^{०१}
 जीवन में शुद्ध विकास हुआ;
 प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई पारस्परिक
 जब विप्लव में पड़ हास हुआ।

यह लीला जिसकी विकस चली

वह मूल शक्ति थी प्रेम कला;

उसका संदेश सुनाने को

संस्कृति में आई वह अमला ।

हम दोनों की संतान वही

कितनी ! सुंदर भोली-भाली;

रंगों ने जिनसे खेला हो

ऐसे फूलों की वह डाली ।

जड़-चेतनता की गाँठ वही

सुलभन है भूल-सुधारों की ।

वह शीतलता है शांतिमयी

जीवन के उष्ण विचारों की ।

उसके पाने की इच्छा हो

तो योग्य बनो" कहती कहती;

वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा

जैसे मुरली चुप हो रहती ।

मनु आँख खोल कर पूछ रहे:—

“पथ कौन वहाँ पहुँचाता है ?

उस ज्योतिमयी को देव ! कहो

कैसे कोई नर पाता है ?”

पर कौन वहाँ उत्तर देता !

वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ;
देखा तो सुन्दर प्राची में
अरुणोदय का रस रंग हुआ ।

उस लता कुञ्ज को मिल-मिल से
हेमाभरशिम थी खेल रही;
देवों के सोम सुधा रस की
मनु के हाथों में बेल रही ।

वासना

चल पड़े कब से हृदय दो पथिक से अश्रांत;
यहाँ मिलने के लिये, जो भटकते थे भ्रांत ।
एक गृह-पति, दूसरा था अतिथि विगत विकार; ✓
प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार ।

एक जीवन सिंधु था, तो वह लहर लघु त.....
एक नवल] प्रभात, तो वह स्वर्ण किरण अमोल ।
एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम; ✓
दूसरा रंजित किरण से श्री-कलित घनश्याम ।

नदी तट के क्षितिज में नव जलद, सायंकाल;
 खेलता ज्यों दो विजलियों से मधुरिमा जाल ।
 लड़ रहे अवरित युगल थे चेतना के पाश;
 एक सकता था न कोई दूसरे को फाँस !

था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव;
 थी प्रगति, पर अड़ा रहता था सतत अटकाव ।
 चल रहा था विजन-पथ पर मधुर जीवन-खेल;
 दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल ।

नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष;
 गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष ।
 दूर जैसे सघन वन-पथ अंत का आलोक;
 सतत होता जा रहा हो, नयन की गति रोक ।

गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय,
 घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय ।
 कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद;
 मधुकरी का सुरस संचय हो चला अब बंद ।

उठ रही थी कालिमा धूसर क्षितिज से दीन;
 भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभव होन ।
 यह दरिद्र मिलन रहा रच एक करुणा-लोक;
 शोक भर निर्जन निलय से विछुड़ते थे कोक ।

मनु अभी तक मनन करते थे लगाये ध्यान;
काम के संदेश से ही भर रहे थे कान ।
इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार;
शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार !

नई इच्छा खींच लाती, अतिथि का संकेत—
चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत ।
देखते थे अग्नि-शाला से कुतूहल युक्त;
मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन-मुक्त ।

एक माया ! आ रहा था पशु अतिथि के साथ;
हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ !
चपल कोमल कर रहा फिर संतत पशु के अंग;
स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह संग ।

कभी पुलकित रोम राजी से शरीर उछाल,
भाँवरों से निज बनाता अतिथि सन्निधि जाल ।
कभी निज भोले नयन से अतिथि वदन निहार;
सकल संचित स्नेह देता दृष्टि पथ से ढार;

और वह पुचकारने का स्नेह शत्रुलित चाव;
मंजु ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव ।
देखते ही देखते दोनों पहुँच कर पास;
लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास ।

वह विराग-विभूति ईर्ष्या-पवन से हो व्यस्त;
 विखरती थी; और खुलते ज्वलन कण जो अस्त।
 किंतु यह क्या ? एक तीखी घूँट, हिचकी आह !
 कौन देता है हृदय में वेदना मय डाह ?

“आह यह पशु और इतना सरल सुन्दर स्नेह !
 पल रहे मेरे दिये जो अन्न से इस गेह ।
 मैं ? कहाँ मैं ? ले लिया करते सभी निज भाग;
 और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग !

अरी नीच कृतघ्नते ! पिच्छल शिला संलग्न;
 मलिन काई सी करेगी हृदय कितने भग्न ?
 हृदय का राजस्व अपहृत, कर अधम अपराध;
 दस्यु मुक्तसे- चाहते हैं सुख सदा निर्बाध ।

विश्व में जो सरल सुन्दर हो विभूति महान;
 सभी मेरी हैं, सभी करती रहें प्रतिदान ।
 यही तो, मैं ज्वलित वाडव-वह्नि नित्य अशांत;
 सिंधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत ।”

आ गया फिर पास क्रोड़ाशील अतिथि उदार;
 चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार ।
 कहा “क्या तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान;
 देखती हैं आँख कुछ, सुनते रहे कुछ कान—

मन कहीं, यह क्या हुआ है ? आज कैसा रंग ?”
 नत हुआ फण दृष्ट ईर्षा का, विलीन उमंग ।
 और सहलाने लगा कर-कमल कोमल कांत;
 देख कर वह रूप सुपमा मनु हुये कुछ शांत ।

कहा “अतिथि ! कहाँ रहे तुम क्रिधर थे अज्ञात;
 और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात—
 किसी सुलभ भविष्य की, क्यों आज अधिक अधीर
 मिल रहा तुम से चिरंतन स्नेह सा गंभीर ?

कौन हो तुम खींचते यों मुझे अपनी ओर;
 और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर !
 ज्योत्स्ना निर्भर ! ठहरती ही नहीं यह आँख;
 तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख ।

कौन करुण रहस्य है तुम में छिपा छविमान
 लता वीरुध दिया करते जिसे छाया दान ।
 पशु कि हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद;
 एक आलिंगन बुलाता सभी को सानंद ।

राशि राशि विखर पड़ा है शांत संचित प्यार;
 रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार ।
 देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका-लास;
 अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास—

और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास
मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास ।
आह यह जो रहा सूना पड़ा कोना दीन;
ध्वस्त मंदिर का, बसाता जिसे कोई भी न—

उसी में विश्राम माया का अचल आवास;
अरे यह सुख नींद कैसी, हो रहा हिम हास !
वासना की मधुर छाया ! स्वास्थ्य बल विश्राम !
हृदय की सौंदर्य प्रतिमा ! कौन तुम छवि धाम !

कामना की किरन का जिसमें मिला हो ओज;
कौन हो तुम, इसी भूले हृदय की चिर खोज !
कुन्द मंदिर सी हँसी ज्यों खुली सुषमा वाँट;
क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध कपाट ?”

कहा हँस कर “अतिथि हूँ मैं, और परिचय व्यर्थ;
तुम कभी उद्विग्न इतने थे न, इसके अर्थ !
चलो, देखो वह चला आता बुलाने आज—
सरल हँसमुख विधु जलद लघु खंड बाहन साज !

कालिमा धुलने लगी घुलने लगा आलोक,
इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक;
इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुसक्यान,
देख कर सब भूल जायें दुःख के अनुमान ।

देख लो, ऊँचे शिखर का व्योम चुम्बन व्यस्त;
 लोटना अंतिम किरण का और होना अस्त ।
 चलो तो इस कौमुदी में देख आवें आज;
 प्रकृति का यह स्वप्न शासन, साधना का राज ।”

सृष्टि हँसने लगी आँखों में खिला अनुराग;
 राज रंजित चंद्रिका थो, उड़ा सुमन पराग ।
 और हँसता था अतिथि मनु का पकड़ कर हाथ;
 चले दोनों, स्वप्न पथ में स्नेह संवल साथ ।

देवदारु निकुञ्ज गह्वर सब सुधा में स्नात;
 सब मनाते एक उत्सव जागरण की रातें ।
 आ रही थी मंदिर भीनी माधवों को गंध;
 पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध ।

शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत;
 सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रांत ।
 उसी भ्रुमुट में हृदय की भावना थी भ्रांत;
 जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत ।

कहा मनु ने “तुम्हें देखा अतिथि ! कितनी बार;
 किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार !
 पूर्व जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत;
 गूँजते जब मंदिर घन में वासना के गीत ।”

भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत;
वही कुछ सजीड़, सस्मित कर रहा संकेत।
'मैं तुम्हारा हो रहा हूँ' यही सुदृढ़ विचार;
चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार।

मधु बरसती विधु किरन हैं काँपती सुकुमार।
पवन में है पुलक मंथर, चल रहा मधु-भार।
तुम समीप, अधीर इतने आज क्यों हैं प्राण ?
छक रहा है किस सुरभि से तृप्त हो कर व्राण ?

आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ;
क्यों मनाना चाहता सा बन रहा असमर्थ
धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार;
हृदय में है काँपती धड़कन, लिये लघु भार !

चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद,
मानती सी दिव्य सुख कुछ गा रहो है छंद !
अग्नि कीट समान जलती है भरी उत्साह,
और जीवित है, न ब्राले हैं न उसमें दाह !

कौन हो तुम विश्व माया कुहक सी साकार,
प्राण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार !
हृदय जिसको कांत छाया में लिये निश्वास,
थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश ।”

श्याम नभ में मधु किरन सा फिर वही मृदु हास,
सिंधु की हिलकोर दक्षिण का समीर विलास !
कुञ्ज में गुञ्जरित कोई मुकुल सा अव्यक्त,
लगा कहने अतिथि, मनु थे सुन रहे अनुरक्त—

“यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोभयुत उन्माद,
सखे ! तुमुल तरंग सा उच्छ्वासमय संवाद,
मत कहो पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन,
विमल राका मूर्ति वन कर स्तब्ध बैठा कौन !

विभव मतवाली प्रकृति का आवरण वह नील
शिथिल है, जिस पर विखरता प्रचुर मंगल खील;
राशि-राशि नखत कुसुम की अर्चना अश्रांत
विखरती है, तामरस सुन्दर चरण के प्रांत ।”

मनु निरखने लगे ज्यों-ज्यों यामिनी का रूप,
वह अनंत प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप;
बरसता था मंदिर कण सा स्वच्छ सतत अनंत,
मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत ।

छूटतीं चिनगारियाँ उत्तेजना उद्भ्रांत,
धुधकती ज्वाला मर, था वक्ष विकल अशांत ।

वात-चक्र समान कुछ था बाँधता आवेश,
धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश;

कर पकड़ उन्मत्त से हो लगे कहने, “आज,
देखता हूँ दूसरा कुछ मधुरिमामय साज !
वही छवि ! हाँ वही जैसे ! किंतु क्या यह भूल ?
रही विस्मृति सिंधु में स्मृति नाव विकल अकूल !

जन्म संगिनि एक थी जो काम बाला, नाम—
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्राम—
सतत मिलता था उसी से, अरे जिसको फूल,
दिया करते अर्घ्य में मकरंद, सुषमा मूल !

प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन / का मोद,
रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद !
ज्योत्स्ना सी निकल आई ! पार कर नीहार,
प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिये तारक हार !

कुटिल कुन्तल से बनाती काल मायाजाल;
नीलिमा से नयन की रचती तमिस्रा माल ।
नींद सी दुर्भेद्य तम की, फेंकती यह दृष्टि,
स्वप्न सी है विखर जाती हँसी की चल सृष्टि ।

हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति,
दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति ।

दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत,
 मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत ।

चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत,
 विजयिनी सी दीखती तुम माधुरी सी शांत ।
 पददलित सी थको ब्रज्या ज्यों सदा आक्रांत,
 शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत ।

आह ! वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम,
 पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम ।
 आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान ।
 विश्व रानी ! सुन्दरी ! नारी जगत की मान !”

धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन,
 दबी शिशिर निशीथ में ज्यों ओस भार नवीन ।
 मुक चली सत्रोड़ वह सुकुमारता के भार,
लद गई पाकर पुरुष का नर्म मय उपचार; ५

और वह नारीत्व का जो मूल मधु
 आज जैसे हँस रहा भीतर बढ़ाता चाव ।
 मधुर ब्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास,
 हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास ।

गिर रहीं पलकें, मुकी थी नासिका की नोक,
 झूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक ।

स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल,
खिला पुलक कदंब सा था भरा गद्गद बोल ।

किंतु बोली “क्या समर्पण आज का हे देव ।
बनेगा चिर-बंध नारी हृदय हेतु सदैव ।
“आह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकँगी दान !
वह, जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान ?”

लज्जा

“कोमल किसलय के अंचल में
नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी;
गोधूली के धूमिल पट में
दीपक के स्वर में दिपती सी ।
मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में नि
मन का उन्माद विखरता ज्यों;
सुरभित लहरों की छाया में
बुल्ले का विभव विखरता ज्यों;
वैसी ही माया में लिपटी
अधरों पर उँगली धरे हुये;
माधव के सरस कुतूहल का
आँखों में पानी भरे हुए ।

नीरव निशीथ में लतिका सी
 तुम कौन आ रही हो बढ़ती ?
 कोमल वाहें फैलाये सी
 आलिंगन का जादू पढ़ती ।

किन इंद्रजाल के फूलों से
 लेकर सुहाग कण राग भरे;
 सिर नीचा कर हो गूँथ रही
 माला जिससे मधु धार ढरे ?

पुलकित कदंब की माला सी
 पहना देती हो अंतर में;
 मुक जाती है मन की डाली
 अपनी फलभरता के डर में ।

वरदान सदृश हो डाल रही
 नीली किरनों से बुना हुआ;
 यह अंचल कितना हलका सा
 कितने सौरभ से सना हुआ ।

सब अंग मोम से बनते हैं
 कोमलता में बल खाती हूँ;
 मैं सिमिट रही सी अपने में
 परिहास गीत सुन पाती हूँ ।

स्मित वन जाती तरल हँसी
 नयनों में भर कर बाँकपना;
 प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो
 वह बनता जाता है सपना ।

मेरे सपनों में कलरव का
 संसार आँख जब खोल रहा;
 अनुराग समीरों पर तिरता
 था इतराता सा डोल रहा ।

अभिलाषा अपने यौवन में
 उठती उस सुख के स्वागत को,
 जीवन भर के बल वैभव से
 सत्कृत करती दूरागत को ।

किरणों का रज्जु समेट लिया
 जिसका अवलंबन ले चढ़ती;
 रस के निर्भर में धँस कर मैं
 आनंद शिखर के प्रति बढ़ती ।

छूने में हिचक, देखने में
 पलकें आँखों पर मुकती हैं,
 कलरव परिहास भरी गूँजें
 अधरों तक सहसा रुकती हैं ।

संकेत कर रही रोमाली
 चुपचाप वरजती खड़ी रही;
 भाषा बन भौहों की काली
 रेखा सी भ्रम में पड़ी रही ।

तुम कौन ? हृदय की परवशता ?
 सारी स्वतंत्रता छीन रहीं;
 स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे
 जीवन बन से हो बीन रही !”

संध्या की लाली में हँसती,
 उसका ही आश्रय लेती सी;
 छाया प्रतिमा गुनगुना उठी
 श्रद्धा का उत्तर देती सी ।

“इतना न चमत्कृत हो बाले !
 अपने मन का उपकार करो;
 मैं एक पकड़ हूँ जो कहती
 ठहरो कुछ सोच विचार करो ।

अंबर-चुम्बी हिम शृंगों से
 कलरव कोलाहल साथ लिये;
 विद्युत की प्राणमयी धारा
 वहती जिसमें उन्माद लिये ।

मंगल कुङ्कुम की श्री जिसमें
 निखरी हो उषा की लाली;
 भोला सुहाग इठलाता हो
 ऐसी हो जिसमें हरियाली ।

हो नयनों का कल्याण बना
 आनंद सुमन सा विकसा हो;
 वासंती के वन-वैभव में
 जिसका पंचम स्वर पिक सा हो;

जो गूँज उठे फिर नस नस में
 मूर्च्छना समान मचलता सा;
 आँखों के साँचे में आकर
 रमणीय रूप वन ढलता सा;

नयनों की नीलम की घाटी
 जिस रस घन से छा जाती हो;
 वह कौंध कि जिससे अंतर को
 शीतलता ठंडक पाती हो ।

हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का
 गोधूली की सी ममता हो;
 जागरण प्रात सा हँसता हो
 जिसमें मध्याह्न निखरता हो ।

ही चकित निकल आई सहसा
 जो अपने प्राची के घर से;
 उस नवल चंद्रिका से विछले
 जो मानस की लहरों पर से ।

फूलों की कोमल पंखड़ियाँ
 बिखरें जिसके अभिनंदन में;
 मकरंद मिलाती हों अपना
 स्वागत के कुंकुम चंदन में ।

कोमल किसलय मर्मर रव से
 जिसका जय घोष सुनाते हों;
 जिसमें सुख दुख मिलकर मन के
 उत्सव आनंद मनाते हों ।

उज्ज्वल वरदान चेतना का
 सौंदर्य जिसे सब कहते हैं;
 जिसमें अनंत अभिलाषा के
 सपने सब जगते रहते हैं ।

मैं उसी चपल की धात्री हूँ
 गौरव महिमा हूँ सिखलाती;
 ठोकर जो लगने वाली है
 उसको धीरे से समझाती ।

मैं देव सृष्टि की रति रानी,

निज पंचवाण से वंचित हो;

वन आवर्जना मूर्ति दीना

अपनी अतृप्ति सी संचित हो ।

अवशिष्ट रह गई अनुभव में

अपनी अतीत असफलता सी,

लीला विलास की खेद भरी

अवसाद मयी श्रम दलिता सी

मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ

मैं शालीनता सिखाती हूँ

मतवाली सुन्दरता पग में

नूपुर सी लिपट मनाती हूँ ।

लाली वन सरल कपोलों में

आँखों में अंजन सी लंगती;

कुंचित अलकों सी घँघराली

सन की मरोर वन कर जगती ।

चंचल किशोर सुन्दरता की

मैं करती रहती रखवाली;

मैं वह हलकी सी मसलन हूँ

जो वनती कानों की लाली ।”

“हाँ ठीक, परंतु बताओगी
मेरे जीवन का पथ क्या है ?
इस निविड़ निशा में संसृति की ~~जड़~~
आलोक मयी रेखा क्या है ?

यह आज समझ तो पाई हूँ
मैं दुर्बलता में नारी हूँ,
अवयव की सुन्दर कोमलता
लेकर मैं सब से हारी हूँ।

पर मन भी क्यों इतना ढीला
अपने ही होता जाता है !
घनश्याम खंड सी आँखों में
क्यों सहसा जल भर आता है ?

सर्वस्व समर्पण करने की
विश्वास महा तरु छाया में ।
चुपचाप पड़ी रहने की क्यों
ममता जगती है माया में ?

✓ छाया पथ में तारक द्युति सी ✓
किर्लामिल करने की मधु लीला,
अभिनय करती क्यों इस मन में
कोमल निरोहता श्रम शीला ?

निस्संबल होकर तिरती हूँ

इस मानस की गहराई में;
चाहती नहीं जागरण कभी
सपने की इस सुघराई में।

नारी जीवन का चित्र यही ✓

क्या ? विकल रंग भर देती हो;
अस्फुट रेखा की सीमा में;
आकार कला को देती हो।

रुकती हूँ और ठहरती हूँ

पर सोच विचार न कर सकती;
पगली सी कोई अंतर में
बैठी जैसे अनुदिन बकती।

मैं जभी तालने का करती

उपचार स्वयं तुल जाती हूँ;
भुज लता फँसा कर नर तरु से
भूले सी भोंके खाती हूँ।

इस अर्पण में कुछ और नहीं ✓

केवल उत्सर्ग छलकता है;
मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ
इतना ही सरल भलकता है।

“क्या कहती तो ठहरो नारी! ✓

संकल्प अश्रु जल से अपने;
तुम दान कर चुकी पहले हो
जीवन के सोने से सपने। ✓

नारी! तुम केवल श्रद्धा हो

विश्वास रजत नग पग तल में,
पीयूष स्रोत सी बहा करे
जीवन के सुन्दर समतल में।

देवों की विजय, दानवों की

हारों का होता युद्ध रहा;
संघर्ष सदा उर अंतर में
जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा।

आँसू के भीगे अंचल पर

मन का सब कुछ रखना होगा; ✓
तुमको अपनी स्मित रेखा से
यह सन्धि पत्र लिखना होगा।”

कर्म

कर्म सूत्र संकेत सदृश थी
सोम लता तब मनु को,
चढ़ी शिंजिनी सी, खींचा फिर
उसने जीवन-धनु को ।

हुये अग्रसर उसी मार्ग में
छुटे तीर से फिर वे,
यज्ञ-यज्ञ की कटु पुकार से
रह न सके अब थिर वे ।

भरा कान में कथन काम का
मन में नव अभिलाषा;
लगे सोचने मनु अतिरंजित
उमड़ रही थी आशा ।

ललक रही थी ललित लालसा
सोम-पान की प्यासी,
जीवन के उस दीन विभव में
जैसी वनी उदासी ।

जीवन की अविराम साधना
भर उत्साह खड़ी थी,
ज्यों प्रतिकूल पवन में तरणी
गहरे लौट पड़ी थी ।

श्रद्धा के उत्साह वचन, फिर
 काम प्रेरणा मिल के;
 भ्रान्त अर्थ बन आगे आये
 बने ताड़ थे तिल के ।

बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर
 पुष्टि हुआ करती है;
 बुद्धि उसी ऋण को सब से ले
 सदा भरा करती है ।

मन जब निश्चित सा कर लेता
 कोई मत है अपना;
 बुद्धि दैव-बल से प्रमाण का
 सतत निरखता सपना ।

पवन वहीं हिलकोर उठाता
 वही तरलता जल में ।
 वही प्रतिध्वनि अंतरतम की
 छा जाती नभ तल में ।

सदा समर्थन करती उसकी
 तर्कशास्त्र की पीढ़ी;
 "ठीक यही है सत्य ! यही है
 उन्नति सुख की सीढ़ी ।

और सत्य ! यह एक शब्द तू
कितना गहन हुआ है;
मेधा के क्रीड़ा-पंजर का
पाला हुआ सुआ है।

सब बातों में खोज तुम्हारी
रट सी लगी हुई है;
किन्तु स्पर्श से तर्क करों के
बनता 'छुई मुई' है।

असुर पुरोहित उस विप्लव से
बच कर भटक रहे थे;
वे किलात आकुलि थे जिनने
कष्ट अनेक सहे थे।

देख देख कर मनु का पशु जो
व्याकुल चंचल रहती;
उनकी आमिष लोलुप रसना
आँखों से कुछ कहती।

'क्यों किलात ! खाते-खाते तृण
और कहाँ तक जीऊँ;
कब तक मैं देखूँ जीवित पशु
घँट लहू का पीऊँ !

क्या कोई इसका उपाय ही
 नहीं कि इसको खाऊँ ?
 बहुत दिनों पर एक बार तो
 सुख की बीन बजाऊँ ।

आकुलि ने तब कहा, 'देखते
 नहीं साथ में उसके;
 एक मृदुलता की, ममता को
 छाया रहती हूँस के ।

अंधकार को दूर भगती
 वह आलोक किरन सी;
 मेरी माया बिंध जाती है
 जिसके हलके घन सी ।

तो भी चलो आज कुछ करके
 तब मैं स्वस्थ रहूँगा;
 या जो भी आवेंगे सुख दुःख
 उनको सद्बज सहूँगा ।'

यों ही दोनों कर विचार उस
 कुंज द्वार पर आये;
 जहाँ सोचते थे मनु बैठे
 मन से ध्यान लगाये ।

“कर्म यज्ञ से जीवन के
 सपनों का स्वर्ग मिलेगा,
 इसी विपिन में मानस की
 आशा का कुसुम खिलेगा।

किंतु बनेगा कौन पुरोहित ?
 अब यह प्रश्न नया है,
 किस विधान से करूँ यज्ञ यह
 पथ किस ओर गया है !

श्रद्धा ! पुण्य-प्राप्य है मेरो
 वह अनंत अभिलाषा,
 फिर इस निर्जन में खोजे
 अब किसको मेरी आशा।”

कहा असुर मित्रों ने अपना
 मुख गंभीर बनाये,
 “जिनके लिये यज्ञ होगा हम
 उनके भेजे आये।

यजन करोगे क्या तुम ? फिर यह
 किसको खोज रहे हो,
 अरे पुरोहित की आशा में
 कितने कष्ट सहे हो।

इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे
 प्रगट निशीथ सवेरा,
 'मित्र वरुण' जिनकी छाया है
 यह आलोक अंधेरा ।
 वे ही पथ दर्शक हों सब विधि
 पूरी होगी सेरो,
 चलो आज फिर से वेदी पर
 हो ज्वाला की फेरी ।"

"परंपरागत कर्मों की वे
 कितनी सुन्दर लड़ियाँ,
 जीवन साधन की उलझी हैं
 जिनमें सुख की घड़ियाँ;
 जिनमें है प्रेरणामयी सी
 संचित कितनी कृतियाँ,
 पुलक भरी सुख देने वाली
 बन कर मादक स्मृतियाँ ।

साधारण से कुछ अतिरंजित
 गति में मधुर त्वरा सी,
 उत्सव लीला, निर्जनता की
 जिससे कटे उदासी;

एक विशेष प्रकार, कुतूहल
 होगा श्रद्धा को भी।”
 प्रसन्नता से नाच उठा मन
 नूतनता का लोभी।

यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी
 धधक रहो थी ज्वाला;
 दारुण दृश्य ! रुधिर के छींटे !
 अस्थि खंड की माला !

वेदी की निर्मम प्रसन्नता,
 पशु की कातर वाणी,
 मिल कर वातावरण बना था
 कोई कुत्सित प्राणी।

सोम पात्र भी भरा, धरा था
 पुरोडाश भी आगे,
 श्रद्धां वहाँ न थी मनु के तब
 सुप्त भाव सब जागे।

“जिसका था उल्लास निरखना
 वही अलग जा वैठी;
 यह सब क्यों फिर ? दृप्त वासना
 लगी गरजने ऐंठी।

जिसमें जीवन का संचित सुख
 सुन्दर मूर्त्त बना है !
 हृदय खोल कर कैसे उसका
 कहूँ कि वह अपना है ?

हवीं प्रसन्न नहीं ? रहस्य कुछ
 इसमें सुनिहित होगा,
 आज वही पशु मर कर भी क्या
 सुख में बाधक होगा ?

श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या
 उसे मनाना होगा,
 या वह स्वयं मान जायेगी,
 किस पथ जाना होगा !

पुरोडाश के साथ सोम का
 पान लगे मनु करने,
 लगे प्राण के रिक्त अंश को
 मादकता से भरने ।

संध्या की धूसर छाया में
 शैल शृंग की रेखा,
 अंकित थी दिगंत अंबर में
 लिये मलिन शशि-लेखा ।

श्रद्धा अपनी शयन गुहा में
 दुखी लौट कर आयी,
 एक विरक्ति बोझ सी ढोती
 मन ही मन बिलखायी ।

सूखी काष्ठ संधि में पतली
 अनल शिखा जलती थी,
 उस धुँधले गृह में आभा से
 तामस को छलती थी ।

किंतु कभी बुझ जाती पाकर
 शीत पवन के भोंके,
 कभी उसी से जल उठती तब
 कौन उसे फिर रोके ।

कामायनी पड़ी थी अपना
 कोमल चर्म विछा के;
 श्रम मानो विश्राम कर रहा
 मृदु आलस को पाके ।

धीरे धीरे जगत चल रहा
 अपने उस ऋजु पथ में,
 धीरे धीरे खिलते तारे
 मृग जुतते विध रथ में ।

अंचल लटकाती निशीथिनी
 अपना उयोत्सा-शाली,
 जिसकी छाया में सुख पावे
 सृष्टि वेदना वालो ।

उच्च शैल शिखरों पर हँसती
 प्रकृति चंचला बाला,
 धवल हँसी बिखराती अपनी
 फैला मधुर उजाला ।

जीवन की उद्दाम लालसा
 उलझो जिससे ब्रीड़ा,
 एक तीव्र उन्माद और मन
 मथने वाली पीड़ा;

मधुर विरक्ति भरी आकुलता,
 घिरती हृदय गगन में,
 अंतर्दाह स्नेह का तब भी
 होता था उस मन में ।

वे असहाय नयन थे खुलते—
 मुँदते भीषणता में,
 आज स्नेह का पात्र खड़ा था,
 स्पष्ट कुटिल कटुता में ।

“कितना दुःख जिसे मैं चाहूँ
 वह कुछ और बना हो,
 मेरा मानस चित्र खींचना
 सुन्दर सा सपना हो ।

जाग उठी है दारुण ज्वाला
 इस अनंत मधुवन में,
 कैसे बुझे कौन कह देगा
 इस नीरव निर्जन में ।

यह अनंत अवकाश नीड़ सा
 जिसका व्यथित बसेरा,
 वही वेदना सजग पलक में
 भर कर अलस सबेरा ।

काँप रहे हैं चरण पवन के,
 विस्तृत नीरवता सी ।
 धुली जा रही है दिशि दिशि की
 नभ में मलिन उदासी ।

अंतरतम की प्यास, विकलता से
 लिपटी बढ़ती है,
 युग युग की असफलता का
 अवलंबन ले चढ़ती है ।

विश्व विपुल आतंक-त्रस्त है
 अपने ताप विषम से,
 फैल रही है घनी नीलिमा
 अंतर्दाह परम से ।

उद्वेलित है उदधि, लहरियाँ
 लोट रहीं व्याकुल सी,
 चक्रवाल को धुँधलो रेखा
 मानो जाती झुलसी ।

सघन धूम कुण्डल में कैसी
 नाच रही यह ज्वाला !
 तिमिर-फणी पहने है मानो
 अपने मणि की माला !

जगती तल का सारा क्रंदन
 यह विषमयी विषमता,
 चुभने वाला अंतरंग छल
 अति दारुण निर्ममता ।

जीवन के वे निष्ठुर दंशन
 जिनकी आतुर पीड़ा,
 कलुष चक्र सी नाच रही हैं
 बन आँखों की क्रीड़ा ।

स्खलन चेतना के कौशल का
 भूल जिसे कहते हैं,
 एक विंदु, जिसमें विषाद के
 नद उमड़े रहते हैं।

आह वही अपराध, जगत की
 दुर्बलता को माया,
 धरणी की वर्जित मादकता,
 संचित तम की छाया।

नील गरल से भरा हुआ
 यह चंद्र कपाल लिये हो,
 इन्हीं निमीलित ताराओं में
 कितनी शांति पिये हो।

अखिल विश्व का विष पीते हो
 सृष्टि जियेगी फिर से,
 कहो अमर शीतलता इतनी
 आती तुम्हें किधर से ?

अचल अनंत नील लहरों पर
 बैठे आसन मारे,
 देव ! कौन तुम मरते तन से
 श्रम कण से ये तारे !

इन चरणों में कर्म-कुसुम की
 अंजलि वे दे सकते,
 चले आ रहे छाया पथ में
 लोक पथिक जो थकते ?

किंतु कहाँ वह दुर्लभ उनको
 स्वीकृति मिली तुम्हारी !
 लौटाये जाते वे असफल
 जैसे नित्य भिखारी ।

प्रखर विनाशशील नर्तन में
 विपुल विश्व की माया,
 क्षण-क्षण होती प्रकट नवीना
 वन कर उसकी काया ।

सदा पूर्णता पाने को सब
 भूल किया करते क्या ?
 जीवन में यौवन लाने को
 जी जी कर मरते क्या ?

यह व्यापार महा गति शाली
 कहीं नहीं वसता क्या ?
 क्षणिक विनाशों में स्थिर मंगल
 चुपके से हँसता क्या ?

यह विराग संबंध हृदय का
 कैसी यह मानवता !
 प्राणी को प्राणी के प्रति वस
 बची रही निर्ममता !

जीवन का सन्तोष अन्य का
 रोदन बन हँसता क्यों ?
 एक एक विश्राम प्रगति को
 परिकर सा कसता क्यों ?
 दुर्ग्यवहार एक का कैसे
 अन्य भूल जावेगा,
 कौन उपाय ! गरल को कैसे
 अमृत बना पावेगा !”

जाग उठी थी तरल वासना
 मिली रही मादकता,
 मनु को कौन वहाँ आने से
 भला रोक अत्र सकता !
 खुले मसृण भुज - मूलों से
 वह आमंत्रण था मिलता,
 उन्नत वक्षों में आलिंगन
 सुख लहरों सा तिरता ।

नीचा हों उठता जो धीमे
 धीमे निश्वासों में,
 जीवन का ज्यों ज्वार उठ रहा
 हिमकर के हासों में ।

जागृत था सौंदर्य यदपि वह
 सोती थी सुकुमारी,
 रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी
 आज निशा सी नारी ।

वे मांसल परमाणु किरण से
 विद्युत थे बिखराते,
 अलकों की डोरी में जीवन
 कण कण उलभे जाते ।

विगत विचारों के श्रम सीकर
 बने हुये थे मोती,
 मुख मंडल पर करुण कल्पना
 उनको रही पिरोती ।

छूते थे मनु और कंटकित
 होती थी वह बेली,
 स्वस्थ व्यथा की लहरों सी
 जो अंग लता थी फैली ।

वह पागल सुख इस जगती का
 आज विराट बना था,
 अंधकार मिश्रित प्रकाश का
 एक वितान तना था।

कामायनी जगी थी कुछ कुछ
 खो कर सब चेतनता,
 मनोभाव आकर स्वयं ही
 रहा बिगड़ता बनता।

जिसके हृदय सदा समीप है
 वही दूर जाता है,
 और क्रोध होता उस पर ही
 जिससे कुछ नाता है।

प्रिय को ठुकरा कर भी मन की
 माया उलझा लेती,
 प्रणय शिला प्रत्यावर्त्तन में
 उसको लौटा देती।

✓ जलदागम मारुत से कम्पित
 पल्लव सदृश हथेली,
 श्रद्धा की, धीरे से मनु ने
 अपने कर में ले ली।

अनुनय वाणी में आँखों में
 उपालंभ की छाया,
 कहने लगे "अरे यह कैसी
 मानवती की माया !

स्वर्ग बनाया है जो मैंने
 उसे न विफल बनाओ,
 अरी अप्सरे ! उस अतीत के
 नूतन गान सुनाओ ।

इस निर्जन में उद्योत्सना पुलकित
 विधु युत नभ के नीचे,
 केवल हम तुम और कौन है ?
 रहो न आँखें मीचे ।

आकर्षण से भरा विश्व यह
 केवल भोग्य हमारा,
 जीवन के दोनों कूलों में
 वहे वासना धारा ।

श्रम की, इस अभाव की जगती
 उसकी सब आकुलता,
 जिस क्षण भूल सकें हम अपनी
 यह भीषण चेतनता !

रोम हर्ष हो उस ज्योत्स्ना में
 मृदु मुसक्यान खिले तो,
 आशाओं पर श्वास निछावर
 होकर गले मिले तो ।

विश्व माधुरी जिसके सम्मुख
 सुकुर बनी रहती हो,
 वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है !
 यह तुम क्या कहती हो ?

जिसे खोजता फिरता मैं इस
 हिम-गिरि के अंचल में,
 वही अभाव स्वर्ग वन हँसता
 इस जीवन चंचल में ।

वर्तमान जीवन के सुत्र से
 योग जहाँ होता है,
 छली अदृष्ट अभाव बना क्यों
 वहीं प्रकट होता है ।

किंतु सकल कृतियों को
 अपनी सीमा हैं हम ही तो,
 पूरी हो कामना हमारो,
 विफल प्रयास नहीं तो !”

एक अचेतनता लाती सी
 सविनय श्रद्धा बोली,
 “ब्रचा जान यह भाव, सृष्टि ने
 फिर से आँखें खोली !

भेद बुद्धि निर्मम ममता को
 समझ, बची ही होगी,
 प्रलय पयोनिधि की लहरें भी
 लौट गई हो होंगी ।

अपने में सब कुछ भर कैसे
 व्यक्ति विकास करेंगे ?
 यह एकांत स्वार्थ भोषण है
 अपना नाश करेगा !

औरों को हँसते देखों मनु
 हँसो और सुख पाओ,
 अपने सुख को विस्तृत कर लो
 सब को सुखी बनाओ ।

रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह
 यज्ञ-पुरुष का जो है
 संसृति सेवा भाग हमारा
 उसे विकसने को है !

सुख को सीमित कर अपने में
 केवल दुःख छोड़ोगे,
 इतर प्राणियों की पोड़ा लख
 अपना मुँह मोड़ोगे।

ये मुद्रित कलियाँ दल में सब
 सौरभ वंदो कर लें,
 सरस न हो मकरंद बिंदु से
 खुल कर तो ये मर लें।

सूखें झड़ें और तब कुचले
 सौरभ को पाओगे,
 फिर आमोद कहाँ से मधुमय
 वसुधा पर लाओगे !

सुख अपने संतोष के लिये
 संग्रह मूल नहीं है,
 उसमें एक प्रदर्शन जिसको
 देखें अन्य, वही है।

निर्जन में क्या एक अकेले,
 तुम्हें प्रमोद मिलेगा ?
 नहीं इसी से अन्य हृदय का
 कोई सुमन खिलेगा ।

सुख समीर पाकर, चाहे हो
 वह एकांत तुम्हारा,
 बढ़ती है सीमा संसृति की
 वन मानवता धारा ।”

हृदय हो रहा था उत्तेजित
 बातें कहते. कहते,
 श्रद्धा के थे अधर सूखते
 मन की ज्वाला सहते ।

अधर सोम का पात्र लिये मनु
 समय देख कर बोले—
 “श्रद्धे ! पी लो इसे बुद्धि के
 बंधन को जो खोले ।

वही करूँगा जो कहती हो
 सत्य, अकेला सुख क्या !”
 यह मनुहार ! रुकेगा प्याला
 पीने से फिर मुख क्या ?

आँखें प्रिय आँखों में, डूबे
 अरुण अधर थे रस में
 हृदय काल्पनिक विजय में सुखी
 चेतनता नस नस में ।

छल वाणी की वह प्रवंचना
 हृदयों की शिशुता को,
 खेल खिलाती, भुलवाती जो
 उस निर्मल विभुता को।

जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य की
 प्रगति दिशा को पल में
 अपने एक मधुर इंगित से
 बदल सके जो छल में।

वही शक्ति अवलंब मनोहर
 निज मनु को थो देती,
 जो अपने अभिनय से मन को
 सुख में उलभा लेती।

“श्रद्धे, होगी चंद्र-शालिनी
 यह भव रजनी भीमा,
 तुम वन जाओ इस जीवन के
 मेरे सुख को सोमा।

लज्जा का आवरण प्राण को
 ढँक लेता है तम से,
 उसे अकिंचन कर देता है
 अलगाता “हम तुम” से।

कुचल उठा आनंद, यही है
 बाधा, दूर हटाओ,
 अपने ही अनुकूल सुखों को
 मिलन दो मिल जाओ।”

और एक फिर व्याकुल चुम्बन
 रक्त खौलता जिससे,
 शीतल प्राण धक्क उठता है
 तृषा तृप्ति के मिस से।

दो काठों की संधि बीच उस
 निभृत गुफा में अपने,
 अग्निशिखा बुझ गई, जागने
 पर जैसे सुख सपने।

इर्या

पल भर को उस चंचलता ने
 खो दिया हृदय का स्वाधिकार !
 श्रद्धा की अब वह मधुर निशा
 फैलाती निष्फल अंधकार !

मनु को अब मृगया छोड़ नहीं
 रह गया और था अधिक काम;
 लग गया रक्त था उस मुख में
 हिंसा-सुख लाली से ललाम।

हिंसा ही नहीं और भी कुछ
 वह खोज रहा था मन अधीर;
 अपने प्रभुत्व की सुख सीमा
 जो बढ़ती हो अवसाद चीर।

जो कुछ मनु के करतल गत था
 उसमें न रहा कुछ भी नवीन;
 श्रद्धा का सरल विनोद नहीं
 रुचता अब था वन रहा दीन।

उठती अंतस्तल से सदैव
 दुर्ललित लालसा जो कि कांत;
 वह इंद्रचाप सी झिलमिल हो
 दब जाती अपने आप शांत।

“निज उद्गम का मुख बंद किये
 कब तक सोयेंगे अलस प्राण;
 जीवन की चिर चंचल पुकार
 रोये कब तक, है कहाँ प्राण !

श्रद्धा का प्रणय और उसको
 आरम्भिक सीधी अभिव्यक्ति;
 जिसमें व्याकुल आलिगन का
 अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति ।

भावनामयी वह स्फूर्ति नहीं
 नव नव स्मित रेखा में विलीन;
 अनुरोध न तो उल्लास, नहीं
 कुसुमोद्गम सा कुछ भी नवीन !

आती है वाणी में न कभी
 वह चाव भरो लीला हिलोर,
 जिसमें नूतनता नृत्यमयी
 इठलाती हो चंचल मरोर ।

जब देखो वैठी हुई वहीं
 शालियाँ चीन कर नहीं श्रांत ।
 या अन्न इकट्ठे करती है
 होती न तनिक सी कभी क्वांत ।

धीजों का संग्रह और उधर
 चलती है तकली भरी गीत;
 सब कुछ लेकर वैठी है वह
 मेरा अस्तित्व हुआ अतीत !”

लौटे थे मृगया से थक कर
 दिखलाई पड़ता गुफा द्वार;
 पर और न आगे बढ़ने की
 इच्छा होती, करते विचार!

मृग डाल दिया, फिर धनु को भी,
 मनु बैठ गये शिथिलित शरीर,
 बिखरे थे सब उपकरण वहीं
 आयुध, प्रत्यंचा, शृंग, तीर!

“पश्चिम की रागमयी संध्या
 अब कालो है हो चली, किंतु
 अब तक आये न अहेरी वे
 क्या दूर ले गया चपल जंतु!”

यों सोच रही मन में अपने
 हाथों में तकली रही घूम;
 श्रद्धा कुछ-कुछ अन्मना चली
 अलकें लेती थीं गुल्फ चूम।

केतकी गर्भ सा पीला मुँह,
 आँखों में आलस भरा स्नेह;
 कुछ कृशता नई लजोली थी
 कंपित ललिका सी लिये देह!

मातृत्व बोझ से मुझे हुये
 बँध रहे पयोधर पीत आज;
 कोमल काले ऊनों की नव
 पट्टिका बनाती रुचिर साज ।

सोने की सिकता में मानो
 कालिंदी बहती भर उसास;
 स्वर्गा में इंदीवर की
 या एक पंक्ति कर रही हास !

कटि में लिपटा था नवल वसन
 वैसा ही हलका बुना नील,
 दुर्भर थी गर्भ मधुर पीड़ा
 झेलती जिसे जननी सलील !

श्रम बिंदु बना सा झलक रहा
 भावी जननी का सरस गर्व,
 वन कुसुम बिखरते थे भू पर
 आया समीप था महा पर्व ।

मनु ने देखा जब श्रद्धा का
 वह सहज खेद से भरा रूप,
 अपनी इच्छा का दृढ़ विरोध
 जिसमें वे भाव नहीं अनूप ।

वे कुछ भी बोले नहीं; रहे

चुप चाप देखते साधिकार,

श्रद्धा कुछ कुछ मुस्कुरा उठी

ज्यों जान गई उनका विचार ।

‘दिन भर थे कहाँ भटकते तुम’

वोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह

‘यह हिंसा इतनी है प्यारी

जो भुलवाती है देह-गोह !

मैं यहाँ अकेली देख रही

पथ, सुनती सी पद ध्वनि नितान्त;

कानन में जब तुम दौड़ रहे

मृग के पीछे वन कर अशांत !

ढल गया दिवस पीला-पीला

तुम रक्त्कारुण बन रहे घूम;

देखो नोड़ों में विहग युगल

अपने शिशुओं को रहे चूम !

उनके घर में कोलाहल है

मेरा सूना है गुफा द्वार !

तुमको क्या ऐसी कमी रही

जिसके हित जाते अन्य द्वार ?

“श्रद्धे ! तुमको कुछ कमी नहीं

पर मैं तो देख रहा अभाव;

भूली सी कोई मधुर वस्तु

जैसे कर देती विकल घाव ।

चिर मुक्त पुरुष वह कब इतने

अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह !

गति हीन पंगु सा पड़ा-पड़ा

ढह कर जैसे वन रहा ढीह ।

जब जड़ बंधन सा एक मोह

कसता प्राणों का मृदु शरीर;

आकुलता और जकड़ने की

तब ग्रंथि तोड़ती हो अधीर ।

हँस कर बोले, बोलते हुये

निकले मधु निर्भर ललित गान;

गानों में हो उल्लास भरा

भूमें जिसमें वन मधुर प्रान

वह आकुलता अब कहाँ रही

जिसमें सब कुछ ही जाय भूल;

आशा के कोमल तंतु सदृश

तुम तकली में हो रही भूल ।

यह क्यों क्या मिलते नहीं तुम्हें
 शावक के सुन्दर मृदुल चर्म ?
 तुम बीज बीनती क्यों ? मेरा
 मृगया का शिथिल हुआ न कर्म ।

तिस पर यह पीलापन कैसा
 यह क्यों बुनने का श्रम सखेद ?
 यह किसके लिये बताओ तो
 क्या इसमें है छिप रहा भेद ?”

अपनी रक्षा करने में जो
 चल जाय तुम्हारा कहीं अख;
 वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं
 हिंसक से रक्षा करे शख ।

पर जो निरीह जीकर भी कुछ
 उपकारी होने में समर्थ;
 वे क्यों न जियें, उपयोगी बन
 इसका मैं समझ सकी न अर्थ !

चमड़े उनके आवरण रहें
 ऊनों से मेरा चले काम;
 वे जीवित हों मांसल बन कर
 हम अमृत दुहें वे दुग्ध धाम ।

वे द्रोह न करने के स्थल हैं
 जो पाले जा सकते सहेतु;
 पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं
 तो भव जलनिधि में वने सेतु।”

“मैं यह तो मान नहीं सकता
 सुख सहज लब्ध यों छूट जाँय;
 जीवन का जो संघर्ष चले
 वह विफल रहे हम छले जाँय ।

काली आँखों की तारा में,
 मैं देखूँ अपना चित्र धन्य;
 मेरा मानस का मुकुर रहे,
 प्रतिबिम्बित तूमसे ही अनन्य ।

श्रद्धे ! यह नव संकल्प नहीं—
 चलने का लघु जीवन अमोल;
 मैं उसको निश्चय भोग चलाँ
 जो सुख चलदल सा रहा डोल !

देखा क्या तुमने कभी नहीं
 स्वर्गीय सुखों पर प्रलय-नृत्य ?
 फिर नाश और चिर निद्रा है
 तब इतना क्यों विश्वास सत्य ?

यह चिर प्रशांत मंगल की क्यों

अभिलाषा इतनी रही जाग ?

यह संचित क्यों हो रहा स्नेह

किस पर इतनी हो सानुराग ?

यह जीवन का वरदान, मुझे

दे दो रानी अपना दुलार !

केवल मेरी हो चिंता का

तब चित्त बहन कर रहे भार ।

मेरा सुन्दर विश्राम बना

सृजता हो मधुमय विश्व एक;

जिसमें बहती हो मधु धारा

लहरें उठती हों एक-एक ।”

✓ “मैंने जो एक बनाया है

चल कर देखो मेरा कुटीर;”

यों कह कर श्रद्धा हाथ पकड़

मनु को ले चली वहीं अधीर ।

उस गुफा समीप पुत्रालों की

द्वाजन छोटी सी शांति-पुंज;

कोमल लतिकाओं की डालें

मिल सघन बनार्ती जहाँ कुंज ।

थे वातायन भी कटे हुये
 प्राचीर पर्ण मय रचित शुभ्र;
 आवें क्षण भर तो चले जाँय
 रुक जाँय कहीं न समीर, अभ्र ।

उसमें था भूला पड़ा हुआ
 वेतसी लता का सुरुचिपूर्ण;
 विछ रहा धरातल पर चिकना
 सुमनों का कोमल सुरभि चूर्ण ।

कितनी मीठी अभिलाषायें
 उसमें चुपके से रहीं घूम !
 कितने मंगल के मधुर गान
 उसके कोनों को रहे चूम !

मनु देख रहे थे चकित नया
 यह गृह-लक्ष्मी का गृह-विधान !
 पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा
 'यह क्यों ? किसका सुख साभिमान ?'

चुप थे पर श्रद्धा ही बोली
 "देखो यह तो बन गया नोड़;
 पर इसमें कलरव करने को
 आकुल न हो रही अभी भीड़ ।

तुम दूर चले जाते हो जब
 तब लेकर तकली यहाँ बैठ;
 मैं उसे फिराती रहती हूँ
 अपनी निर्जनता बीच पैठ ।

मैं वैठी गाती हूँ तकली के
 प्रतिवर्त्तन में स्वर विभोर—
 'चल री तकली धीरे धीरे
 प्रिय गये खेलने को अहेर ।

जीवन का कोमल तंतु बड़े
 तेरी ही मंजुलता समान;
 चिर नम्र प्राण उनमें लिपटें
 सुन्दरता का कुछ बड़े मान ।

किरणों सी तू बुन दे उज्वल
 मेरे मधु जीवन का प्रभात;
 जिसमें सौंदर्य प्रकृति सरल
 ढँक ले प्रकाश से नवल गात ।

वासना भरी उन आँखों पर
 आवरण ढाल दे कांतिमान;
 जिसमें सौंदर्य निखर आवे
 लतिका में फुल कुसुम समान ।

अब वह आगंतुक गुफा बाँच
 पशु सा न रहे निर्वसन नम्र;
 अपने अभाव की जड़ता में
 वह रह न सकेगा कभी मम्र ।'

सूना न रहेगा यह मेरा
 लघु विश्व कभी जब रहोगे न;
 मैं उसके लिये विछाऊँगी
 फूलों के रस का मृदुल फेन ।

भूले पर उसे झुलाऊँगी ✓
 टुलरा कर लूँगी वदन चूम;
 मेरी छाती से लिपटा इस
 घाटी में लेगा सहज घूम ।

वह आवेगा मृदु मलयज सा
 लहराता अपने मस्तुण बाल;
 उसके अधरों से फैलेगा
 नव मधुमय स्मित लतिका-प्रवाल ।

अपनी मोठी रसना से वह
 बोलेगा ऐसे मधुर बोल;
 मेरी पीड़ा पर छिड़केगा
 जो कुसुम धूलि मकरंद घोल ।

मेरी आँखों का सब पानी
 तब बन जायेगा अमृत स्निग्ध;
 उन निर्विकार नयनों में जब
 देखूँगी अपना चित्र मुग्ध।”

“तुम फूल उठोगी लतिका सी
 कंपित कर सुख सौरभ तरंग;
 मैं सुरभि खोजता भटकूँगा
 वन-वन वन कस्तूरी कुरंग।

यह जलन नहीं सह सकता मैं
 चाहिये मुझे मेरा ममत्व;
 इस पंचभूत की रचना में
 मैं रमण करूँ वन एक तत्व।

यह द्वैत अरे यह द्विविधा तो
 है प्रेम वाँटने का प्रकार!
 भिक्षुक मैं ? ना, यह कभी नहीं
 मैं लौटा लूँगा निज विचार।

तुम दानशीलता से अपनी
 वन सजल जलद वितरो न विंदु;
 इस मुख नभ में मैं विचरूँगा
 वन सकल कलाधर शरद इंदु।

भूजे से कभी निहारोगा
 कर आकर्षण मय हास एक;
 मायाविनि ! मैं न उसे लूँगा
 वरदान समझ कर, जानु टेक !

इस दीन अनुग्रह का मुझ पर
 तुम बोझ डालने में समर्थ;
 अपने को मत समझो श्रद्धे !
 हांगा प्रयास यह सदा व्यर्थ ।

तुम अपने सुख से सुखी रहो
 मुझको दुख पाने दो स्वतंत्रः
 'मन की परवशता महा दुःख'
 मैं यही जपूँगा महा-मंत्र ।

लो चला आज मैं छोड़ यहीं
 संचित संवेदन भार पुंज;
 मुझको काँटे ही मिलें धन्य !
 हो सफल तुम्हें ही कुसुम-कुञ्ज ।”

कह, ज्वलन-शील अंतर लेकर
 मनु चले गये, था शून्य प्रांत;
 “रुक जा, सुन ले ओ निर्मोही !”
 वह कहती रही अधीर श्रांत ।

किस गहन गुहा से अति अधीर

भंभा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महा समीर
 ले साथ विकल परमाणु पुञ्ज नभ, अनिल, अनल, क्षिति और नीर
 भयभीत सभी को भय देता भय को उपासना में विलीन
 प्राणी कटुता को बाँट रहा जगती को करता अधिक दान
 निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता
 संघर्ष कर रहा सा जब से, सब से विराग सब पर ममता
 अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर
 किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर ?

देखे मैंने वे शैल शृंग

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुङ्ग
 अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भङ्ग
 अपनी समाधि में रहे सुखी वह जाती हैं नदियाँ अवोध
 कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध
 स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मैं वैसा चाहता नहीं इस जीवन की
 मैं तो अवाध गति मरुत सदृश, हूँ चाह रहा अपने मन की
 जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में कंपन की तरंग

—वह ज्वलनशील गतिमय पतंग ।

अपनी ज्वाला से कर प्रकाश

जब छोड़ चला आया सुन्दर प्रारंभिक जीवन का निवास
वन, गुहा, कुञ्ज, मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास
पागल मैं, किस पर सद्य रहा ? क्या मैंने, ममता ली न तोड़ !
किस पर उदारता से रोम्भा ? किससे न लगा दी कड़ी होड़ !
इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला
खूसा झुलसाता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला
मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पनालोक में कर निवास

देखा कब मैंने कुसुम हास ।

इस दुखमय जीवन का प्रकाश

नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश
कलियाँ जिनको मैं समझ रहा वे काँटे विखरे आस-पास
कितना वीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितान्त
उन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत
इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही
खोखली शून्यता में प्रति पद असफलता अधिक कुलाँच रही
पावस रजनी में जुगुनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश

उन् ज्योति कणों का कर विनाश ।

किस गहन गुहा से अति अधीर

भंभा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महा समीर
 ले साथ विकल परमाणु पुञ्ज नभ, अनिल, अनल, च्छिति और नीर
 भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन
 प्राणी कटुता को बाँट रहा जगती को करता अधिक दोन
 निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता
 संघर्ष कर रहा सा जब से, सब से विराग सब पर ममता
 अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर

किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर ?

देखे मैंने वे शैल शृंग

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुङ्ग
 अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भङ्ग
 अपनी समाधि में रहे सुखी वह जाती हैं नदियाँ अवोध
 कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध
 स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की
 मैं तो अबाध गति मरुत सदृश, हूँ चाह रहा अपने मन की
 जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में कंपन की तरंग

—वह ज्वलनशील गतिमय पतंग ।

अपनी ज्वाला से कर प्रकाश

जब छोड़ चला आया सुन्दर प्रारंभिक जीवन का निवास
 वन, गुहा, कुञ्ज, मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास
 पागल मैं, किस पर सद्य रहा ? क्या मैंने, ममता ली न तोड़ !
 किस पर उदारता से रोभा ? किससे न लगा दाँ कड़ी होड़ !
 इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला
 लू सा झुलसाता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला
 मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पनालोक में कर निवास

देखा कब मैंने कुसुम हास ।

इस दुखमय जीवन का प्रकाश

नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश
 कलियाँ जिनको मैं समझ रहा वे काँटे विखरे आस-पास
 कितना वीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितान्त
 उन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत
 इस नियति नदी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही
 खोखली शून्यता में प्रति पद असफलता अधिक कुल्लाँच रही
 पावस रजनी में जुगुनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश

उन ज्योति कणों का कर बिनाश ।

जीवन-निशीथ के अंधकार !

तू नील तुहिन जल-निधि वनकर फैला है कितना वार पार
 कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रहीं ये निर्विकार
 कितना मादक तम, निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग
 तू मूर्त्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग
 ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला
 जैसे सुहागिनी की ऊर्मिल अलकों में कुङ्कुम चूर्ण भला
 रे चिर-निवास-विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार

माया रानी के केशभार ।

जीवन निशीथ के अंधकार !

तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार
 जिसमें अपूर्ण लालसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार
 यौवन मधुवन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत
 मन शिशु की क्रीड़ा नौकायें वस दौड़ लगाती हैं अनंत
 कुहुकिनि अपलक दृग के अंजन ! हँसती तुझमें सुन्दर छलना
 धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नव-कलना
 इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छायी पिक प्राणों की पुकार

वन नील प्रतिध्वनि नभ अपार ।

यह उजड़ा सूना नगर प्रांत

जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत
 निज विकृत वक्र रेखाओं से, प्राणी का भाग्य वनी अशांत
 कितनी सुखमय स्मृतियाँ, अपूर्ण रुचि बन कर मँडराती विकीर्ण
 इन ढेरों में दुख भरी कुहचि दब रही अभी बन पत्र जीर्ण
 आती दुलार को हिचको सी सूने कोनों में कसक भरी
 इस सूख तरु पर मनोवृत्ति आकाश-बेलि सी रही हरी
 जीवन समाधि के खँडहर पर जो जल उठते दीपक अशांत

फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत ।

यों सोच रहे मनु पड़े श्रांत

श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आये प्रशांत
 पथ-पथ में भटक अटकते वे आये इस उजड़ नगर प्रांत
 बहती सरस्वती वेग भरी निस्तब्ध हो रही निशा श्याम
 नक्षत्र निरखते निर्निमेष वसुधा की वह गति विकल वाम
 वृत्रघ्नी का वह जानाकीर्ण उपकूल आज कितना सूना
 देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना
 वह पावन सारस्वत प्रदेश दुःस्वप्न देखता पड़ा छांत

फैला था चारों ओर ध्रांत ।

जीवन का लेकर नव विचार

जब चला द्वंद था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार उस ओर आत्म विश्वास निरत सुर वर्ग कह रहा था पुकार— मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर उल्लास शील मैं शक्ति केंद्र, किसकी खोजँ फिर शरण और आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र्य भरा अपना नव नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदैव हरा प्राणों के सुख साधन में ही, संलग्न असुर करते सुधार

नियमों में बँधते दुर्निवार।

था एक पूजता देह दीन

दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास हीन फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें—क्यों हो न युद्ध उनका संघर्ष चला अशान्त वे भाव रहे अब तक विरुद्ध मुझमें ममत्वभय आत्म मोह स्वातंत्र्य मयी उच्छ्रंखलता हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता वह पूर्व द्वंद परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन

सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन।

‘मनु ! तुम श्रद्धा को गये भूल

उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल
 तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा भूल
 जो क्षण वीतेँ सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया भान
 वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उलटी मति का व्यर्थ ज्ञान
 तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की
 समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की”
 जब गूँजी यह वाणी तीखी कंपित करती अम्बर अकूल

मनु को जैसे चुभ गया शूल ।

‘यह कौन ? अरे फिर वही काम !

जिसने इस भ्रम में है डाला छीना जीवन का सुख विराम ?
 प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियों का अब शेष नाम
 वरदान आज उस गत युग का कंपित करता है अंतरंग
 अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग ।’
 बोले मनु ‘क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा
 क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिये नहीं सस्नेह कहा ?
 पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज असृत धाम

फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम ?’

“मनु ! उसने तो कर दिया दान

वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान
जिसमें चेतनता ही केवल निज शान्त प्रभा से ज्योतिमान
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र
सौंदर्य जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके
‘कुछ मेरा हो’ यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान

मानस जलनिधि का क्षुद्र यान।

हाँ अब तुम वनने को स्वतंत्र

सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र
द्वंदों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र
डालीं में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन
अपनी रुचि से तुम विधे हुये। जिसको चाहे ले रहे वीन
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया
हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया
अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का वने यंत्र

हाँ शाप भरा तव प्रजा तंत्र।

यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि

द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि
 अनजान समस्यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि
 कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़ें भेद
 अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद
 हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की-जड़ता
 पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता
 तब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि

दुख देगी यह संकुचित दृष्टि ।

अनवरत उठे कितनी उमंग

चुम्बित हों आँसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग
 जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग
 लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जायँ बीत
 संदेह नये उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा सभीत
 फैलेगा स्वजनों का विरोध वन कर तम वाली श्याम असा
 दारिद्र्य दलित बिलखाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रमा
 दुख नीरद में वन इंद्रधनुष बदले नर कितने नये रंग

वन तृष्णा ज्वाला का पतंग ।

“मनु ! उसने तो कर दिया दान

वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान
जिसमें चेतनता ही केवल निज शान्त प्रभा से ज्योतिमान
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र
सौंदर्य जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप हके
‘कुछ मेरा हो’ यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अज्ञान

मानस जलनिधि का क्षुद्र यान ।

हाँ अब तुम वनने को स्वतंत्र

सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र
दुंदों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र
डालीं में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन
अपनी रुधि से तुम विधे हुये। जिसको चाहे ले रहे वीन
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया
हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया
अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का वने चंत्र

हो श्राप भरा तत्र प्रजा तंत्र ।

यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि

द्वयता में लगी निरंतर ही वरुणों की करती रहे वृष्टि
 अनजान समस्यायें गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि
 कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़ें भेद
 अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद
 हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की-जड़ता
 पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पड़ता
 तब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि

दुख देगी यह संकुचित दृष्टि ।

अनवरत उठे कितनी उमंग !

चुम्बित हों आँसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग
 जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग
 लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जायँ वीत
 संदेह नये उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा सभीत
 फैलेगा स्वजनों का विरोध बन कर तम वाली श्याम अमा
 दारिद्र्य दलित बिलखाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति रमा
 दुख नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नये रंग

बन वृष्णा ज्वाला का पतंग ।

वह प्रेम न रह जाये पुनीत

अपने स्वार्थों से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे समीत
 सारी संसृति हो विरह भरी, गाते ही बीतें करुण गीत
 आकांक्षा जलनिधि को सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त
 तुम राग विराग करो सबसे अपने को कर शतशः विभक्त
 मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध दोनों में हो सद्भाव नहीं
 वह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाय कहीं
 रोकर बीतें सब वर्तमान क्षण सुन्दर अपना हो अतीत

पैगों में भूले हार जीत ।

संकुचित असीम अमोघ शक्ति

जीवन को बाधा मय पथ पर ले चले भेद से भरी भक्ति
 या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति
 व्यापकता नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बंद
 सर्वज्ञ ज्ञान का क्षुद्र अंश विद्या बन कर कुछ रचे छंद
 कर्तृत्व सकल बन कर आवे नश्वर छाया सी ललित कला
 नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला
 तुम समझ न सको, घुराई से शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति

हो विफल तर्क से भरी युक्ति ।

जीवन सारा बन जाय युद्ध

उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाँय सभी जो भाव शुद्ध
 अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध
 अपने को आवृत किये रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप
 वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दंभ स्तूप
 श्रद्धा इस संसृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वास मयी
 सब कुछ देकर नव निधि अपनी तुम से हां तो वह छली गई
 हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध

सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध ।

तुम जरा मरण में चिर अशांत

जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत
 अमरत्व वही अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत
 दुखमय चिर चिंतन के प्रतीक ! श्रद्धा वंचक बनकर अधीर
 मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग्य बाँध पोटे लकोर
 'कल्याण भूमि यह लोक' यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा
 अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भर जा
 आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत

वह चलता रहे सदैव भ्रांत ।”

अभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन

नभ सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महा मीन मृदु मरुत लहर में फेनोपम तारागण झिलझिल हुए दीन निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह विजन प्रांत रजनी तम पुंजीभूत सदृश मनु आस ले रहे थे अशांत वे सोच रहे थे "आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया लिख दिया आज उसने भविष्य ! यातना चलेगी अंतहीन

अब तो अवशिष्ट उपाय भी न।"

करती सरस्वती मधुर नाद

वहती थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड़ विपाद वह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केवल मधुर गान थी कर्म निरंतरता प्रतीक चलता था स्ववश अनंत ज्ञान हिम शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जाना आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया विखराना अद्भुत था ! निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद

कहता जाता कुछ सु-संवाद ।

प्राची में फैला मधुर राग

जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग
 जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग
 आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन असंद
 करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने को मरद
 उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुन्दर वाला
 वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नव माला
 सुपमा का मंडल सुस्मित सा बिखराता संसृति पर सुराग

सोया जीवन का तम विराग ।

बिखरीं अलकें ज्यों तर्क जाल

वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल
 दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल
 गुञ्जरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान
 चक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान
 था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिये
 दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिये
 त्रिबली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल

चरणों में थी गति भरी ताल ।

नीरव थी प्राणों की पुकार

मूर्च्छित जीवन सर निस्तरंग नीहार धिर रहा था अपार,
निस्तब्ध अलस बन कर सोयी चलती न रही चंचल वयार
पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी मधु वूँदें मधुर मौन
निस्वन दिगंत में रहे रुद्ध सहसा बोले मनु "अरे कौन
आलोक मयी रिमिति चेतनता आयी यह हेमवती छाया"
तंद्रा के स्वप्न तिराहित थे विश्वरी केवल उजली माया
वह स्पर्श दुलार पुलक से भर बीते युग को उठता पुकार

वीचियाँ नाचतीं बार बार।

प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल

वह बोली "मैं हूँ इड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल।"
नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल
"मनु मेरा नाम सुनो बाले ! मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश।"
"स्वागत ! पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश
भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा
इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आये दिन मेरा।"

X

X

X

X

"मैं तो आया हूँ देवि वता दो जीवन का क्या सहज मोल

भव के भविष्य का द्वार खोल !

‘इस विश्व कुहर में इंद्रजाल

जिसने रच कर फैलाया है ग्रह तारा विद्युत नखत माल
सागर की भोषण तम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल
तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को समीत
उस निष्ठुर की रचना कठार केवल विनाश की रही जीत
तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी
उसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गयी
सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल

किसने यह पट है दिया डाल !

“शनि का सुदूर वह नील लोक

जिसकी छाया सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक
उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक
वह एक किरन अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय
क्या बन सकता है ? नियति जाल से मुक्तिदान का कर उपाय ।”

×

×

×

×

“कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे
अपनी दुर्बलता बल सम्हाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे;
मत कर पसार निज पैरों चल, चलने की जिसको रहे मौक

उसको कब कोई सके रोक ।

‘हाँ तुम ही हो अपने सहाय

जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय
जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य्य भरी शोधक विहीन
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर वन कर्मलीन
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषमता या समता
तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय

यश अखिल लोक में रहे छाया ।”

हँस पड़ा गगन वह सून्यलोक

जिसके भीतर बस कर उजड़े जितने ही जीवन मरण शोक
कितने हृदयों के मधुर भिलन क्रंदन करते वन विरह कोक
ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज
हँस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राज-काज
चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मलयाचल की वाला
लख लाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा-दल मतवाला
उन्निद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक-भोंक

वसुधा विस्मृत थी सकल शोक ।

“जीवन निशीथ का अंधकार

भग रहा चित्तिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार
 तुम इडे उपा सी आज यहाँ आयी हो वन कितनी उदार
 कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव सोये विहंग
 हँसती प्रसन्नता चावभरी वन कर किरनों की सी तरंग
 अवलंब छोड़ कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया
 मैं बड़ा सहज, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया
 मेरे विकल्प संकल्प वनें, जीवन हो कर्मों की पुकार

सुख साधन का हो खुला द्वार।”

स्वप्न

संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती,
 मुरझा कर कव गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती !
 चित्तिज भाल का कुङ्कुम मिटता मलिन कालिमा के कर से,
 कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मँड़राती ।

कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, न वह मकरंद रहा;
 एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ !
 वह प्रभात का हीन कला शशि, किरन कहाँ चाँदनी रही,
 वह संध्या थी, रवि शशि तारा ये सब कोई नहीं जहाँ ।

जहाँ तामरस इंदोवर या सित शतदल हैं मुरभाये,
अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये;
वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं,
शिशिर कला की क्षीण स्रोत वह जो हिमतल में जम जाये।

एक सौन वेदना विजन की, भिछी की झुनकार नह
जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसक साकार रह
हरित कुञ्ज की छाया भर थी वसुधा आलिंगन करत
वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं

नील गगन में उड़ती-उड़ती विहग-वालिका सी किरनें,
स्वप्न-लोक को चलीं थकी सी नींद सेज पर जा गिरने;
किन्तु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं,
विजली सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जर्भी तम घन घिरने।

संध्या नील सरोरुह से जो श्याम पराग बिखरते
शैल घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते
वृण-गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाय
श्रद्धा की सूनी साँसों से मिला कर जो त्वर भरते थे :-

“जीवन में सुख अधिक या कि दुख, संदाकिनि कुछ बोलोगी ?
नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद हैं गिन दोगी ?
प्रतिविम्बित हैं तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो,
या दोनों प्रतिविम्ब एक के इस रहस्य को खोलोगी !

इस अवकाश पटी पर जितने चित्र बिगड़ते वनते हैं,
 उनमें कितने रंग भरे जो सुरधनु पट से छनते हैं;
 किन्तु सकल अणु पल में घुल कर व्यापक नील शून्यता सा,
 जगती का आवरण वेदना का धूमिल पट वुनते हैं।

ग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ !
 कतना स्नेह जला कर जलता ऐसा है लघु दीप कहाँ ?
 भ्रम न जाय वह साँझ-किरण सी दीप-शिखा इस कुटिया की,
 लाभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ !

आज सुनूँ केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले,
 पर न परागों की वैसी है चहल-पहल जो थी पहले;
 इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या,
 कामायनि ! तू हृदय कड़ा कर धीरे-धीरे सब सह ले।

विरल डालियों के निकुञ्ज सब ले दुख के निश्वास रहे,
 उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे ?
 आज विश्व अभिमानी जैसे रुठ रहा अपराध बिना,
 किन चरणों को धोयेंगे जो अश्रु पलक के पार वहे !

अरे मधुर हैं कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ !
 जब निस्संवल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ;
 वही एक जो सत्य बना था चिर सुन्दरता में अपनी,
 छिपा कहीं, तब कैसे सुलभे उलझीं सुख दुख की लड़ियाँ !

विस्मृत हों वे वीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं,
वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं!
सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु अभिलाषायें;
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं!

वे आलिंगन एक पाश थे, स्मिति चपला थी, आज कहीं
और मधुर विश्वास ! अरे वह पागल मन का मोहर
वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिंचन
कभी दे दिया था कुछ मैंने, ऐसा अब अनुमान र

विनिमय प्राणों का यह कितना भयसंकुल व्यापार अरे !
देना हो जितना दे-दे तू, लेना ! कोई यह न करे !
परिवर्त्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती,
संध्या रवि देकर पाती है इधर-उधर उडुगान बिखरे !

वे कुछ दिन जो हँसते आये अंतरिक्ष अरुणाचल
फूलों की भरमार स्वरों का कूजन लिये कुहक बल
फैल गयी जब स्मिति की माया, किरन कली की क्रीड़ा
चिर प्रवास में चले गये वे आने को कह कर छल

जब शिरीष की मधुर गंध से मानभरी मधुच्छतु रातें,
रूठ चली जातीं रक्तिम-मुख, न सह जागरण की घातें;
दिवस मधुर आलाप कथा-सा कहता छा जाता नभ में,
वे जगते सपने अपने तब तारा बन कर मुसक्याते ।”

वन वालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधु स्वर से,
लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से;
किंतु न आया वह परदेसी युग छिप गया प्रतीक्षा में,
रजनी की भींगी पलकों से तुहिन विंदु कण-कण बरसे।

गानस का स्मृति शतदल खिलता, भरते विंदु मरंद घने,
मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने !
आँसू सरल तरल विद्युत्कण, नयनालोक विरह तम में,
माण पथिक यह संवल लेकर लगा कल्पना-जग रचने।

अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुषार के विंदु भरे,
मुकुर चूर्ण वन रहे प्रतिच्छवि कितनी साथ लिये बिखरे !
वह अनुराग हँसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में,
वर्षा विरह कुहू में जलते स्मृति के जुगुनू डरे डरे।

सूने गिरि-पथ में गुञ्जारित शृंगनाद की ध्वनि चलती,
आकांचा लहरी दुख-तटिनी पुलिन अंक में थी ढलती;
जले दीप नभ के, अभिलाषा शलभ उड़े, उस ओर चले,
भरा रह गया आँखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती।

“माँ”—फिर एक किलक दूरागत गूँज उठी कुटिया सूनी,
माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी;
लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाहें आकर लिपट गईं,
निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धूनी!

“कहाँ रहा नटखट ! तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना !
अरे पिता के प्रतिनिधि, तू ने भी सुख दुख तो दिया घना;
चंचल तू, बनचर मृग बन कर भरता है चौकड़ी कहीं,
मैं डरती तू रूठ न जाये करती कैसे तुझे मना !”

“मैं रूठूँ माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कहीं,
ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं;
पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली।”
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुँल, कुछ विषाद से भरी रही।

जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर-मधुर वे पल हलके,
मुक्त उदास गगन के उर में छाले बन कर जा भलके;
दिवा-श्रांत आलोक-रश्मियाँ नील निलय में छिपी कहीं,
करुण वही स्वर फिर उस संसृति में वह जाता है गल के।

प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता,
दूर, किन्तु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता !
मधुर चाँदनी सी तंद्रा जब फैली मूर्च्छित मानस पर,
तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता !

कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही,
युग-युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही;
जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था,
आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही !

इड़ा अग्नि-ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी,
मनु का पथ आलोकित करती विपद-नदी में बनी तरी;
उन्नति का आरोहण, महिमा शैल-शृंग सी, श्रान्ति नहीं,
तीव्र प्रेरणा की धारा सी वही वहीं उत्साह भरी।

वह सुन्दर आलोक किरन सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिये,
जिधर देखती, खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किये !
मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी तारा थी,
आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिये !

मनु का नगर बसा है सुन्दर सहयोगी हैं सभी बने,
दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने;
वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन सम्पन्न हुये,
खेतों में हैं कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम-स्वेद सने।

उधर धातु गलते, बनते हैं आभूषण औ' अस्त्र नये,
कहीं साहसी ले आते हैं मृगया के उपहार नये;
पुष्पलावियाँ चुनती हैं वन-कुसुमों की अध-विकच कली,
गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज, जुटे नवीन प्रसाधन ये।

घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी,
तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्च्छना उधर ढरी;
अपने वर्ग बना कर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ,
उनकी मिलित प्रयत्न-प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी।

देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं,
सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं;
बड़े ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम बल की विस्तृत छाया में,
नर प्रयत्न से ऊपर आवें जो कुछ वसुधा तल में हैं ।

सृष्टि बीज अंकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरा-भरा !
प्रलय बीच भी रक्षित मनु से वह पैला उत्साह भरा;
आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनायें करके,
स्वावलम्ब की दृढ़ धरणी पर खड़ा, नहीं अब रहा डरा ।

श्रद्धा उस आश्चर्य-लोक मलय-बालिका सी चलती,
सिंहद्वार के भीतर पहुँची, खड़े प्रहरियों को छलती;
ऊँचे स्तम्भों पर बलभी युत बने रम्य प्रासाद वहाँ,
धूप धूम सुरभित गृह, जिनमें थी आलोक-शिखा जलती ।

स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुये उद्यान बने,
ऋजु-प्रशस्त पथ बीच-बीच में, कहीं लता के कुञ्ज घने;
जिनमें दम्पति समुद्र विहरते, प्यार भरे दे गलबार्हीं,
गँज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा-मोद पराग सने ।

देवदारु के वे प्रलम्ब भुज, जिनमें उलझी वायु-तरंग,
मुखरित आभूषण से कलरव करते सुन्दर बाल विहंग;
आश्रय देता वेणु वनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को,
नागकेशरों की वयारी में अन्य सुमन भी थे वहरंग ।

नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहाँ,
 एक ओर रखे हैं सुन्दर मढ़े चर्म से सुखद वहाँ;
 आती है शैलेय अग्रह की धूम-गंध आमोद भरी,
 श्रद्धा सोच रही सपने में 'यह लो मैं आ गयी कहाँ?'

और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिये,
 मनु, वह क्रतुमय पुरुष ! वही मुख संध्या की लालिमा पिये ।
 मादक भाव सामने, सुन्दर एक चित्र सा कौन यहाँ,
 जिसे देखने को यह जीवन मर-मर कर सौ बार जिये ?

इड़ा ढालती थी वह आसव, जिसकी बुझती प्यास नहीं,
 तृषित कंठ को, पी-पी कर भी, जिसमें है विश्वास नहीं;
 वह वैश्वानर की ज्वाला सी, मंच वेदिका पर बैठी,
 सौमनस्य विखराती शीतल, जड़ता का कुछ भास नहीं ।

मनु ने पूछा "और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ?"
 बोली इड़ा "सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ!
 क्या सब साधन स्ववश हो चुके?" "नहीं अभी मैं रिक्त रहा—
 देश वसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ ।

सुन्दर मुख, आँखों की आशा, किंतु हुये ये किसके हैं;
 एक वाँकपन प्रतिपद शशि का, भरे भाव कुछ रिस के हैं;
 कुछ अनुरोध मान-मोचन का करता आँखों में संकेत,
 बोल अरी मेरी चेतनते ! तू किसकी, ये किसके हैं?"

“प्रजा-तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ मैं,
 यह सन्देह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं”
 “प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी मुझे न अब भ्रम में डालो,
 मधुर मराली ? कहो ‘प्रणय के मोती अब चुनती हूँ मैं !’

मेरा भाग्य गगन धँधला सा, प्राची पट सी तुम उसमें:
 खुल कर स्वयं अचानक कितनी प्रभा पूर्ण हो छवि यश में !
 मैं अतृप्त आलोक भिखारी ओ प्रकाश-बालिके ! वता,
 कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में ?

“ये सुख-साधन और रूपहली रातों की शीतल छाया,
 स्वर संचरित दिशायें, मन है उन्मद और शिथिल काया;
 तब तुम प्रजा बनो मत रानी !” नर पशु कर हुंकार उठा,
 उधर फैलती मंदिर घटा सी अंधकार की घन माया !

आलिंगन ! फिर भय का क्रंदन ! वसुधा जैसे काँप उठी !
 वह अतिचारी, दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी !
 अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल था,
 अरे आत्मजा प्रजा ! पाप की परिभाषा बन शाप उठी !

उधर गगन में क्षुब्ध हुईं सब देव-शक्तियाँ क्रोध भरी,
 रुद्र-नयन खुल गया अचानक, व्याकुल काँप रही नगरी;
 अतिचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहें !
 नहीं; इसी से चढ़ी शिंजिनी अजगव पर प्रतिशोध भरी !

प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकम्पित पद अपना,
 उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना !
 आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध,
 फिर कुछ होगा यही समझ कर वसुधा का थर-थर कँपना !

कॉप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु,
 अपनी-अपनी पड़ी सभी को, छिन्न स्नेह का कोमल तंतु;
 आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिये,
 इड़ा क्रोध लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थी किंतु ।

देखा उसने, जनता व्याकुल राजद्वार कर रुद्ध रही,
 प्रदूरी के दल भी भुक्त आये उनके भाव विशुद्ध नहीं;
 नियमन एक भुकाव दबा सा, टूटे या ऊपर उठ जाय !
 प्रजा आज कुछ और सोचती अब तक जो अविरुद्ध रही !

कोलाहल में घिर, छिप बैठे मनु, कुछ सोच विचार भरे,
 द्वार वंद लख प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे !
 शक्ति तरंगों में आंदोलन, रुद्ध क्रोध भीषण तम था,
 महानील-लोहित-ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे ।

वह विज्ञान मयी अभिलाषा, पंख लगा कर उड़ने की,
 जीवन की असीम आशायें कभी न नीचे मुड़ने की;
 अधिकारों को सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया,
 वर्गों की खाँई वन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की !

असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी !
समझ न पाये कि यह हुआ क्या, प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी !
परित्राण प्रार्थना विकल थी देव क्रोध से वन विद्रोह,
इड़ा रही जब वहाँ ! स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी ।

“द्वार बन्द कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना
प्रकृति आज उत्पात कर रही, मुझको बस सोने देना !”
कह कर यों मनु प्रगट क्रोध में, किंतु डरे से थे मन में
शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना-देना

श्रद्धा काँप उठी सपने में, सहसा उसकी आँख खुली,
यह क्या देखा मैंने ? कैसे वह इतना हो गया छली ?
स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकायें उठ आतीं,
अब क्या होगा, इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली ।

संघर्ष

श्रद्धा का था स्वप्न किन्तु वह सत्य बना था,
इड़ा संकुचित उधर प्रजा में क्षोभ घना था ।

भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घवराये,
राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आये ।

किन्तु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था,
मनस्ताप से सबके भीतर रोप भरा था ।

क्षुब्ध निरखते वदन इड़ा का पीला पीला,
उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला ।

प्रांगण में थी भीड़ बढ़ रही सब जुड़ आये,
प्रहरी गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाये ।

रात्रि घनी कालिमा पटी में दबी-लुकी सी,
रह-रह होती प्रगट मेघ की ज्योति मुकी सी ।

मनु चिन्तित से पड़े शयन पर सोच रहे थे,
क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहे थे ।

“मैं यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुआ था,
किन्तु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था ।

कितने जव से भर कर इनका चक्र चलाया,
अलग अलग ये एक हुई पर इनकी छाया ।

मैं नियमन के लिये वुद्धि-बल से प्रयत्न कर,
इनको कर एकत्र, चलाता नियम बना कर ।

किन्तु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूँ मैं,
तनिक न मैं स्वच्छंद, स्वर्ण सा सदा गलूँ मैं !

जो मेरी है सृष्टि उसीसे भीत रहूँ मैं,
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ मैं ?

अद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं,
प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब वहाँ रुका मैं ।

इड़ा नियम परतंत्र चाहती मुझे बनाना,
निर्वाहित अधिकार उसी ने एक न माना।

विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है;
इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो हैं

रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती,
उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती।

तरल अग्नि की दौड़ लगी है सब के भीतर,
गल कर बहते हिम-नग सरिता लीला रच कर।

यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता !
टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता ?

कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में,
लास रास कर रहे लटकते हुये अधर में।

उठती हैं पवनों के स्तर में लहरें कितनी,
यह असंख्य चीत्कार और परवशता इतनी।

यह नर्तन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्रुततर,
गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर।

कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन,
उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन।

रुदन हास बन किंतु पलक में झलक रहे हैं,
शत शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं।

जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है,
इस विनाश में सृष्टि कुंज हो रहा हरा है ।

‘विश्व बँधा है एक नियम से’ यह पुकार सी,
फैल गई हैं इनके मन में दृढ़ प्रचार सी ।

नियम इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना,
वशी नियामक रहे, न ऐसा मैंने माना ।

मैं चिर बंधन हीन मृत्यु सीमा उल्लंघन
करता सतत चलूँगा यह मेरा है दृढ़ प्रण ।

महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना,
चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना ।”

प्रगतिशील मन रुका एक क्षण करवट लेकर,
देखा अविचल इड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर !

और कह रही “किन्तु नियामक नियम न माने,
तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने ।”

“ऐं तुम फिर भी यहाँ आज कैसे चल आयी,
क्या कुछ और उपद्रव की है बात समायी—

मन में, यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना !
क्या न हुई है तुष्टि ? बच रहा है अब कितना ?”

“मनु सब शासन स्वत्व तुम्हारा सतत निवाहें,
तुष्टि, चेतना का क्षण अपना अन्य न चाहें !

आह प्रजापति यह न हुआ है कभी न होगा,
निर्वाधित अधिकार आज तक किसने भोगा ?”

यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित,
एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित ।

चिति केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है,
द्वयता का जो भाव सदा मन में भरता है,

वे विस्मृत पहचान रहे से एक एक को,
होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को ।

स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें,
संस्कृति का कल्याण करें शुभ मार्ग बतावें ।

व्यक्ति चेतना इसीलिये परतंत्र बनी सी,
रागपूर्ण, पर द्वेष-पंक में सतत सनी सी;

नियत मार्ग में पद पद पर है ठोकर खाती,
अपने लक्ष्य समीप श्रान्त हो चलती जाती ।

यह जीवन उपयोग, यही है बुद्धि साधना,
अपना जिसमें श्रेय यही सुख की अ'राधना ।

लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में,
प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र को इस काया में ।

देश कल्पना काल परिधि में होती लय है,
काल खोजता महा चेतना में निज क्षय है ।

प्रजा क्षुब्ध हो शरण माँगती उधर खड़ी है,
प्रकृति सतत आतंक विकपित घड़ी घड़ी है।

सावधान! मैं शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्या ?
कहना था कह चुकीं और अब यहाँ रहूँ क्या !”

“मायाविनी! बस पा ली तुमने ऐसे छुट्टी,
लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्टी।

मूर्त्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी,
तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखायी!

रुधिर भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला !
विनयन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला।

चार वर्ण बन गये बँटा श्रम उनका अपना,
शस्त्र यंत्र बन चले, न देखा जिनका सपना।

आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर,
प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर ?

बाधा नियमों की न पास में, अब आने दो,
इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो।

वामिनी! यह लो सब कुछ वैभव अपना,
तुमको सब उपाय से कह लूँ अपना।

यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा
समझो, तुम हो अग्नि और यह सभी धुँवाँ सा ?”

“इड़े ! मुझे वह वस्तु चाहिये जो मैं चाहूँ,
तुम पर हो अधिकार, प्रजापति न तो वृथा हूँ।

तुम्हें देख कर बंधन ही अब टूट रहा सब,
शासन या अधिकार चाहता हूँ न तनिक अब।

देखो यह दुर्धर्ष प्रकृति का इतना कंपन !
मेरे हृदय समस्त क्षुद्र है इसका स्पंदन !

इस कठोर ने प्रलय खेल है हँस कर खेला !
किन्तु आज कितना कोमल हो रहा अकेला ?

तुम कहती हो विश्व एक लय है, मैं उसमें,
लीन हो चूँ ? किन्तु धरा है क्या सुख इसमें।

क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूँ,
उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पा लूँ !

फिर से जलनिधि उछल बहे मर्यादा बाहर !
फिर भंक्का हो वज्र प्रगति से भीतर बाहर !

फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे !
रवि शशि तारा सावधान हों चौकें जागें !

किंतु पास ही रहो बालिके ! मेरी हो तुम,
मैं हूँ कुछ खिलवाड़ नहीं जो अब खेलो तुम ?”

“आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें,
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राण्य न पाते।

प्रजा क्षुब्ध हो शरण माँगती उधर खड़ी है,
प्रकृति सतत आतंक विकपित घड़ी घड़ी है।

सावधान ! मैं शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्या ?
कहना था कह चुकीं और अब यहाँ रहूँ क्या !”

“मायाविनी ! वस पा ली तुमने ऐसे छुट्टी,
लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्टी।

मूर्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी,
तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखायी !

रुधिर भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला !
विनयन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला।

चार वर्ण बन गये बँटा श्रम उनका अपना,
शस्त्र यंत्र बन चले, न देखा जिनका सपना।

आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर,
प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर ?

बाधा नियमों की न पास में, अब आने दो,
इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो।

राष्ट्र स्वामिनी ! यह लो सब कुछ वैभव अपना,
केवल तुमको सब उपाय से कह लूँ अपना।

यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा
समझो, तुम हो अग्नि और यह सभी धुँआँ सा ?”

“मैंने जो मनु, किया उसे मत यों कह भूलो,
तुमको जितना मिला उसी में यों मत फूलो !

प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने,
तुमको केंद्र बना कर अनहित किया न मैंने !

मैंने इस त्रिखरी विभूति पर तुमको स्वामी,
सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी ।

किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है,
हाँ में हाँ न मिलाऊँ तो अपराध बड़ा है ।

मनु ! देखो यह भ्रांत निशा अब बीत रही है,
प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है ।

अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो,
वनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तो ।”

और एक क्षण वह, प्रमाद का फिर से आया,
इधर इड़ा ने द्वार ओर निज पैर बढ़ाया ।

किंतु रोक ली गयी भुजाओं से मनु की वह,
निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह ।

“यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी !
मुझको अपना अस्त्र बना करती मनमानी !

यह छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो,
मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो ।

शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी,
क्योंकि दासता मुझसे अब तो हो न सकेगी।

मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा
हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा।

छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल में,
सकल व्यवस्था अभी जाय डूबती अतल में।

देख रहा हूँ वसुधा का अति भय से कंपन,
और सुन रहा हूँ नभ का यह निर्मम क्रंदन!

किंतु आज तुम वंदी हो मेरी बाहों में,
मेरी छाती में”, फिर सब डूबा आहों में!

सिंहद्वार अरराया जनता भीतर आयी,
“मेरो रानी” उसने जो चीत्कार सचायी।

अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे,
खलित विकंपित पद वे अब भी काँप रहे थे।

सजग हुये मनु वज्र खचित ले राजदंड तब,
और पुकारा “तो सुन लो जो कहता हूँ अब;

“तुम्हें वृत्तिकर सुख के साधन सकल बताया,
मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाया।

अत्याचार प्रकृति कृति हम सब जो सहते हैं,
करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं!

आज न पशु हैं हम, या गूंगे काननचारी,
यह उपकृति क्या भूल गये तुम आज हमारी !”

वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से,
“देखो पाप पुकार उठा अने ही मुख से !

तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला,
लोभ सिखा कर इस विचार संकट में डाला ।

हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख,
कष्ट समझने लगे बना कर निज कृत्रिम दुख !

प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छीनी !
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर भीनी !

और इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है ?
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है ?

आज बंदिनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है ?
ओ यायावर ! अब तेरा निस्तार कहाँ है ?”

“तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रण में,
प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में ।

आज साहसिक का पौष निज तन पर लेखें,
राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखें !”

यों कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र सन्हाला,
देव ‘आग’ ने उगली त्योंही अपनी ज्वाला ।

छूट चले नाराच धनुष से तीक्ष्ण नुकीले,
 दूट रहे नभ धूमकेतु अति नीले पीले,

अंधड़ था बढ़ रहा, प्रजा दल सा भूँभलाता,
 रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता ।

किंतु क्रूर मनु वारण करते उन बाणों को,
 बढ़े कुचलते हुये खेड्ग से जन प्राणों को ।

तांडव में थी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे,
 नियति विकर्षण मयी, त्रास से सब व्याकुल थे ।

मनु फिर रहे अलात-चक्र से उस घन तम में,
 वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में ।

उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था,
 बढ़ा विपन्न समूह मौन पददलित व्यवस्था ।

आहत पीछे हटे, स्तम्भ से टिक कर मनु ने,
 श्वास लिया, टंकार किया दुर्लक्ष्यी धनु ने ।

बहते विकट अधीर विषम उंचास वात थे,
 मरण पर्व था; नेता आकुलि औ' किलात थे ।

ललकारा, "बस अब इसको मत जाने देना,
 किंतु सजग मनु पहुँच गये कह "लेना लेना ।"

"कायर ! तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया,
 अरे, समझ कर जिनको अपना था अपनाया ।

पुर-लक्ष्मी खग-रव के मिस कुछ

कह उठती थी करुण कथा ।

कुछ प्रकाश धूमिल सा उसके

दीपों से था निकल रहा,

पवन चल रहा था रुक रुक कर

खिन्न भरा अर्बसाद रहा ।

भय मय मौन निरीक्षक सा था

सजग सतत चुपचाप खड़ा,

अंधकार का नील आवरण

दृश्य जगत से रहा बड़ा ।

मंडप के सोपान पड़े थे

सूने, कोई अन्य नहीं,

स्वयं इड़ा उस पर बैठी थी

अग्नि शिखा थी धधक रही ।

शून्य राज चिह्नों से मन्दिर

वस समाधि सा रहा खड़ा,

क्योंकि वहाँ घायल शरीर वह

मनु का तो था रहा पड़ा ।

इड़ा ग्लानि से भरी हुई वस

सोच रही वीती बातें,

घृणा और ममता में ऐसी

वीत चुकीं कितनी रातें !

नारी का वह हृदय ! हृदय में
 सुधा सिन्धु लहरें लेता,
 बाड़व उरलन उसी में जल कर
 कंचन सा जल रँग देता ।
 मधु पिंगल उस तरल अग्नि में
 शीतलता संसृति रचती,
 क्षमा और प्रतिशोध ! आह रे
 दोनों की माया नचती ।
 “उसने स्नेह किया था मुझसे
 हाँ अनन्य वह रहा नहीं,
 सहज लब्ध थी वह अनन्यता
 पड़ी रह सके जहाँ कहीं !
 बाधाओं का अतिक्रमण कर
 जो अबाध हो दौड़ चले,
 वही स्नेह अपराध हो उठा
 जो सब सीमा तोड़ चले !

हाँ अपराध ! किन्तु यह कितना
 एक अकेले भीम बना,
 जीवन के कोने से उठ कर
 इतना आज समीप बना ।
 और प्रचुर उपकार सभी वह
 —सहृदयता की सब माया—

शून्य शून्य था ! केवल उसमें
खेल रही थी छल छाया !

“कितना दुखी एक परदेशी

बन, उस दिन जो आया था,
जिसके नीचे धरा नहीं थी

शून्य चतुर्दिक छाया था ।

वह शासन का सूत्रधार था

नियमन का आधार बना,

अपने निर्मित नव विधान से

स्वयं दंड साकार बना ।

“सागर की लहरों से उठ कर

शैल शृङ्ग पर सहज चढ़ा,

अप्रतिहत गति, संस्थानों से

रहता था जो सदा बढ़ा ।

आज पड़ा है वह मुमूर्षु सा

वह अतीत सब सपना था,

उसके ही सब हुए पराये

सबका ही जो अपना था ।

“किन्तु, वही मेरा अपराधी

जिसका वह उपकारी था,

प्रकट उसी से दोष हुआ है

जो सबको गुणकारी था ।

अरे सर्ग-अंकुर के दोनों
 पल्लव हैं ये भले बुरे,
 एक दूसरे की सीमा हैं
 क्यों न युगल को प्यार करें ?

“अपना हो या औरों का सुख
 वृद्धा कि बस दुख बना वहीं,
 कौन विन्दु है रुक जाने का
 यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं।

प्राणी निज भविष्य चिन्ता में
 वर्तमान का सुख छोड़े,
 दौड़ चला है बिखराता सां
 अपने ही पथ में रोड़े।

“इसे दंड देने में बैठी
 या करती रखवाली मैं,
 यह कैसी है विकट पहेली
 कितनी उलझन वाली मैं ?

एक कल्पना है मीठी यह
 इससे कुछ सुन्दर होगा.
 हाँ कि, वास्तविकता से अच्छी
 सत्य इसी को वर देगा।”

चौंक उठी अपने विचार से
 कुछ दूरागत ध्वनि सुनती,
 इस निस्तब्ध निशा में कोई
 चली आ रही है कहती—
 “अरे बता दो मुझे दया कर
 कहाँ प्रवासी है मेरा ?
 उसी बावले से मिलने को
 डाल रही हूँ मैं फेरा ।
 रूठ गया था अपनेपन से
 अपना सकी न उसको मैं,
 वह तो मेरा अपना ही था
 भला मनाती किसको मैं !
 यही भूल अब शूल सदृश हो
 साल रही उर में मेरे,
 कैसे पाऊँगी उसको मैं
 कोई आकर कह दे रे !”

इडा उठी, दिख पड़ा राजपथ
 धुँधली सी छाया चलती,
 बाणी में थीं करुण वेदना
 वह पुकार जैसे जलती ।
 शिथिल शरीर वसन विशृङ्खल
 कवरी अधिक अधीर खुली,

छिन्न-पत्र मकरन्द लुटी सी
 ज्यों मुरभाई हुई कली ।
 नव कोमल अवलम्ब साथ में
 वय किशोर उँगली पकड़े,
 चला आ रहा मौन धैर्य सा
 अपनी माता को जकड़े ।
 थके हुए थे दुखी बटोही
 वे दोनों ही माँ बेटे,
 खोज रहे थे भूले मनु को
 जो घायल हो कर लेटे ।

इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही
 दुखियों को देखा उसने,
 पहुँची पास और फिर पूछा
 “तुमको बिसराया किसने ?
 इस रजनी में कहाँ भटकती
 जाओगी तुम बोलो तो,
 बैठो आज अधिक चंचल हूँ
 व्यथा-गाँठ निज खोलो तो ।
 जीवन की लंबी यात्रा में
 खोये भी हैं मिल जाते,
 जीवन है तो कभी मिलन है
 कट जातीं दुख की रातें ।”

श्रद्धा रुकी कुमार श्रान्त था
 मिलता है विश्राम यहीं,
 चली इडा के साथ जहाँ पर
 वहि शिखा प्रज्वलित रही ।

सहसा धधकी वेदी-ज्वाला
 मंडप आलोकित करती,
 कामायनी देख पायी कुछ
 पहुँची उस तक डग भरती ।

और वही मनु ! घायल सचमुच
 तो क्या सच्चा स्वप्न रहा ?

आह प्राणप्रिय ! यह क्या ? तुम यों !
 घुला हृदय, बन नीर वहा ।

इडा चकित, श्रद्धा आ बैठी
 वह थी मनु को सहलाती,

अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था
 व्यथा भला क्यों रह जाती ?

उस मूर्छित नीरवता में कुछ
 हलके से स्पन्दन आये,

आँखें खुलीं चार कोनों में
 चार त्रिन्दु आकर द्याये ।

उधर कुमार देखता ऊँचे

मन्दिर, मंडप, वेदी को,

यह सब क्या है नया मनोहर

कैसे ये लगते जी को ?

माँ ने कहा 'अरे आ तू भी

देख पिता हैं पड़े हुए,'

पिता ! आ गया ला' यह कहते

उसके रोयें खड़े हुए ।

'माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे

क्या बैठी कर रही यहाँ ?'

मुखर हो गया सूना मंडप

यह सजीवता रही कहाँ ?

आत्मीयता घुली उस घर में

छोटा सा परिवार वेना,

छाया एक मधुर स्वर उसपर

श्रद्धा का संगीत बना ।

“तुमुल कोलाहल कलइ में

मैं हृदय की बात रे मन !

विकल होकर नित्य चंचल,

खोजती जब नींद के पल;

चेतना थक सी रही तब,

मैं मलय की बात रे मन !

चिर विषाद विलीन मन की,
 इस व्यथा के तिमिर वन की;
 मैं उषा सी ज्योति रेखा,
 कुसुम विकसित प्रात रे मन !
 जहाँ मरु ज्वाला धधकती,
 चातकी कन को तरसती;
 उन्हीं जीवन घाटियों की,
 मैं सरस बरसात रे मन !
 पवन की प्राचीर में रुक,
 जला जीवन जो रहा झुक;
 इस झुलसते विश्व दिन की,
 मैं कुसुम ऋतु रात रे मन !
 चिर निराशा नीरधर से,
 प्रतिच्छायित अश्रु सर में;
 मधुप मुखर मरंद मुकुलित,
 मैं सजल जलजात रे मन !”

उस स्वर लहरी के अक्षर सब

संजीवन रस बने धुले,

उधर प्रभात हुआ प्राची में

मनु के मुद्रित नयन खुले ।

श्रद्धा का अवलम्ब मिला फिर

कतना मे दया भरे

मनु उठ बैठे गद्गद् होकर
बोले कुछ अनुराग भरे।

“श्रद्धा ! तू आ गयी भला तो
पर क्या मैं था यहीं पड़ा !”
वही भवन, वे स्तम्भ, वेदिका !

विखरी चारो ओर घृणा।
आँख बन्द कर लिया क्षोभ से
“दूर-दूर ले चल मुझको,
इस भयावने अंधकार में
खो दूँ कहीं न फिर तुमको।
हाथ पकड़ ले चल सकता हूँ
हाँ कि यही अवलम्ब मिले,
वह तू कौन ! परे हट, श्रद्धे !

आ कि हृदय का कुसुम खिले।”
श्रद्धा नीरव सिर सहलाती
आँखों में विश्वास भरे,
मानो कहती “तुम मेरे हो
अब क्यों कोई वृथा डरे ?”

जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से
लगे बहुत धीरे कहने,
“ले चल इस छाया के बाहर
मुझको दे न यहाँ रहने।

मुक्त नाल नभ के नीचे यां
 कहीं गुहा में रह लेंगे,
 अरे भेलता ही आया हूँ
 जो आवेगा सह लेंगे।”

“ठहरो कुछ तो बल आने दो
 लिवा चलूँगी तुरत तुम्हें,
 इतने क्षण तक” श्रद्धा बोली
 “रहने देंगी क्या न हमें ?”

इड़ा संकुचित उधर खड़ी थी
 यह अधिकार न छीन सकी,
 श्रद्धा अविचल, मनु अब बोले
 उनकी वाणी नहीं रुकी।

“जब जीवन में साध भरी थी
 उच्छृङ्खल अनुरोध भरा,
 अभिलाषाएँ भरी हृदय में
 अपनेपन का बोध भरा।

मैं था, सुन्दर कुसुमों की वह
 सघन सुनहली छाया थी,
 मलयानिल की लहर उठ रही
 उल्लासों की माया थी!

उषा अरुण प्याला भर लाती
 सुरभित छाया के नीचे,

उस दिन तो हम जान सके थे
 सुन्दर किसको हैं कहते !
 तब पहचान सके, किसके हित
 प्राणी यह दुख सुख सहते ।
 जीवन कहता यौवन से "कुछ
 देखा तू ने मतवाले"
 यौवन कहता "साँस लिये चल
 कुछ अपना सम्बल पा ले !"
 हृदय बन रहा था सीपी सा
 तुम स्वाती की वूँद बर्नी,
 मानस शतदल भूम उठा जब
 तुम उसमें मकरन्द बर्नी ।
 तुमने इस सूखे पतझड़ में
 भर दी हरियाली कितनी,
 मैंने समझा मादकता है
 वृत्ति बन गयी वह इतनी !

विश्व, कि जिसमें दुख की आँधी
 पीड़ा की लहरी उठती,
 जिसमें जीवन मरण बना था
 बुदबुद की माया नचती ।
 वही शान्त उज्ज्वल मङ्गल सा
 दिखता था विश्वास भरा,

तुम अजस्र वर्षा मुहाग को
 और स्नेह की मधु रजनी,
 चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो
 तुम उसमें संतोष बनी ।

कितना है उपकार तुम्हारा
 आश्रित मेरा प्रणय हुआ,
 कितना आभारी हूँ; इतना
 संवेदनमय हृदय हुआ ।

किन्तु अधम मैं समझ न पाया
 उस मंगल की माया को,
 और आज भी पकड़ रहा हूँ
 हर्ष शोक की छाया को ।
 मेरा सब कुछ क्रोध मोह के
 उपादान से गठित हुआ,
 ऐसा ही अनुभव होता है
 किरनों ने अब तक न हुआ ।

शापित सा मैं जीवन का यह
 ले कंकाल भटकता हूँ,
 उसी खोखलेपन में जैसे
 कुछ खोजता अटकता हूँ ।
 अन्तमस है किन्तु प्रकृति का
 आकर्षण है खींच रहा,

जीवन जलनिधि के तल से जो
 मुक्ता थे वे निकल पड़े,
 जग-मंगल संगीत तुम्हारा
 गाते मेरे रोम खड़े ।

आशा की आलोक किरन से
 कुछ मानस से ले मेरे,
 लघु जलधर का सृजन हुआ था
 जिसको शशिलेखा घेरे—
 उस पर विजली की माला सी
 भूम पड़ीं तुम प्रभा भरी,
 और जलद वह रिमझिम बरसा
 मन वनस्थली हुई हरी
 तुमने हँस हँस मुझे सिखाया
 विश्व खेल है खेल चलो,
 तुमने मिलकर मुझे बताया
 सबसे करते मेल चलो ।
 यह भी अपने विजली के से
 विभ्रम से संकेत किया,
 अपना मन है, जिसको चाहा
 तब इसको दे दान दिया ।

तुम अजस्र वर्षा मुहाग को
 और स्नेह की मधु रजनी,
 चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो
 तुम उसमें संतोष बनी ।

कितना है उपकार तुम्हारा
 आश्रित मेरा प्रणय हुआ,
 कितना आभारी हूँ; इतना
 संवेदनमय हृदय हुआ ।

किन्तु अधम मैं समझ न पाया
 उस मंगल की माया को,
 और आज भी पकड़ रहा हूँ
 हर्ष शोक की छाया को ।

मेरा सब कुछ क्रोध मोह के
 उपादान से गठित हुआ,
 ऐसा ही अनुभव होता है
 किरनों ने अब तक न छुआ ।

शापित सा मैं जीवन का यह
 ले कंकाल भटकता हूँ,
 उसी खोखलेपन में जैसे
 कुछ खोजता अटकता हूँ ।

अंथन्तमस है किन्तु प्रकृति का
 आकर्षण है खींच रहा,

सब पर, हाँ अपने पर भी मैं
 झुंझलाता हूँ खीझ रहा।
 नहीं पा सका हूँ मैं जैसे
 जो तुम देना चाह रही,
 क्षुद्र पात्र ! तुम उसमें कितनी
 मधु धारा हो ढाल रही।
 सब बाहर होता जाता है
 स्वगत उसे मैं कर न सका,
 बुद्धि-तर्क के छिद्र हुए थे
 हृदय हमारा भर न सका।

यह कुमार मेरे जीवन का
 उच्च अंश, कल्याण कला !
 कितना बड़ा प्रलोभन मेरा
 हृदय स्नेह बन जहाँ ढला।
 सुखी रहे, सब सुखी रहें बस
 छोड़ो मुझ अपराधी को",
 श्रद्धा देख रही चुप मनु के
 भीतर उठती आँधी को।
 दिन बीता रजनी भी आई
 तंद्रा निद्रा संग लिये,
 इड़ा कुमार समीप पड़ी थी
 मन की दबी उमंग लिये।

श्रद्धा भी कुछ खिन्न थीकी सी
 हाथों का उपधान किये,
 पड़ी सोचती मन ही मन कुछ;
 मनु चुप सब अभिशाप पिये—

सोच रहे थे, “जीवन सुख है ?
 ना, यह विकट पहेली है,
 भाग अरे मनु ! इन्द्रजाल से
 कितनी व्यथा न भेली है ?
 यह प्रभात की स्वर्ण किरन सी
 क्लिलमिल चंचल सी छाया,
 श्रद्धा को दिखलाऊँ कैसे
 यह मुख या कलुषित काया ।
 और शत्रु सब, ये छूतघ्न फिर
 इनका क्या विश्वास करूँ,
 प्रतिहिंसा प्रतिशोध दवा कर
 मन ही मन चुपचाप मरूँ ।
 श्रद्धा के रहते यह संभव
 नहीं कि कुछ कर पाऊँगा,
 तो फिर शांति मिलेगी मुझको
 जहाँ, खोजता जाऊँगा ।”

जगे सभी जब नव प्रभात में
 देखें तो मनु वहाँ नहीं,
 'पिता कहाँ' कह खोज रहा सा
 वह कुमार अब शान्त नहीं।
 इड़ा आज अपने को सब से
 अपराधी है समझ रही,
 कामायनी मौन बैठी सी
 अपने में ही उलझ रही।

दर्शन

वह चन्द्रहीन थी एक रात,
 जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात;
 उजले उजले तारक झलमल,
 प्रतिविम्बित सरिता वक्षस्थल,
 धारा वह जाती विम्ब अटल,
 खुलता था धीरे पवन पटल;
 चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पॉत,
 सुनती जैसे कुछ निजी वात।

धूमिल छायाएँ रहीं घूम,
 लहरी पैरों को रही चूम;

“माँ! तू चल आई दूर इधर,
 संध्या कव की चल गई उधर;
 इस निर्जन में अब क्या सुन्दर—
 तू देख रही, हाँ बस चल घर
 उसमें 'से उठता गंध धूम'
 श्रद्धा ने वह मुख लिया चूम।

“माँ! क्यों तू है इतनी उदास,
 क्या मैं हूँ तेरे नहीं पास;
 तू कई दिनों से यों चुप रह,
 क्या सोच रही है? कुछ तो कह;
 यह कैसा तेरा दुःख दुसह,
 जो बाहर भीतर देता दह;
 लेती ढीली सी भरी साँस,
 जैसे होती जाती हताश।”

वह बोली “नील गगन अपार,
 जिसमें अवनत घन सजल भार;
 आते जाते, सुख, दुख, दिशि, पल,
 शिशु सा आता कर खेल अनिल;
 फिर झलमल सुन्दर तारक दल,
 नभ रजनी के जुगनु; अविरल;

यह विश्व अरे कितना उदार,
मेरा गृह रे उन्मुक्त द्वार ।

यह लोचन गोचर सकल लोक,
संस्मृति के कल्पित हर्ष शोक;
भावोदधि से किरनों के सग;
स्वाती कन से बन भरते जग,
उत्थान पतन मय सतत सजग,
भरने भरते आलिङ्गित नग;

उलझन की मीठी रोक टोक
यह सब उसकी है नोक झोंक ।

जग, जगता आँखें किये लाल,
सोता ओढ़े तम नींद जाल;
सुरधनु सा अपना रंग बदल,
मृति, संस्मृति, नति, उन्नति में ढल;
अपनी सुषमा में यह झलमल,
इसपर खिलता भरता उडुदल;

अवकाश सरोवर का मराल,
कितना सुन्दर कितना विशाल ।

इसके स्तर-स्तर में मौन शान्ति,
शीतल अगाध है, ताप भ्रान्ति;

परिवर्तन मय यह चिर मङ्गल,
 मुसक्यते इसमें भाव सकल;
 हँसता है इसमें कोलाहल,
 उल्लास भरा सा अन्तस्तल;

मेरा निवास अति मधुर कान्ति,
 यह एक नीड़ है सुखद शान्ति।”

“अम्बे फिर क्यों इतना विराग,
 मुझ पर न हुई क्यों सानुराग ?”

पीछे मुड़ श्रद्धा ने देखा,
 वह इड़ा मलिन छवि की रेखा;
 ज्यों राहुग्रस्त सी शशि लेखा,
 जिस पर विषाद की विष रेखा;

कुछ ग्रहण कर रहा दीन त्याग,
 सोया जिसका है भाग्य, जाग।

बोली “तुमसे कैसी विरक्ति,

तुम जीवन की अन्धानुरक्ति;

मुझसे बिछुड़े को अवलम्बन,

देकर, तुमने रक्खा जीवन;

तुम आशामयि ! चिर आकर्षण,

तुम मादकता की अवनत घन;

मनु के मस्तक को चिर अतृप्ति;
तुम उत्तेजित चंचला शक्ति !

मैं क्या दे सकती तुम्हें मोल,
यह हृदय ! अरे दो मधुर बोल;

मैं हँसती हूँ रो लेती हूँ,

मैं पाती हूँ खो देती हूँ;

इससे ले उसको देती हूँ;

मैं दुख को सुख कर लेती हूँ;

अनुराग भरी हूँ मधुर बोल,
चिर विस्मृति सी हूँ रही डोल ।

यह प्रभा पूर्ण तव मुख निहार,
मनु हत चेतन थे एक बार;

नारी माया ममता का बल,

वह शक्तिमयी छाया शीतल;

फिर कौन क्षमा कर दे निश्छल,

जिससे यह धन्य बने भूतल;

‘तुम क्षमा करोगी’ यह विचार,

“मैं छोड़ूँ कैसे साधिकार ।”

“अब मैं रह सकता नहीं मौन,

अपराधी किन्तु यहाँ न कौन ?

सुख दुख जीवन में सब सहते,
 पर केवल सुख अपना कहते।
 अधिकार न सीमा में रहते,
 पावस, निर्भर से वे बहते;
 रोके फिर उनको भला कौन ?
 सब को वे कहते—'शत्रु हो न !'

अप्रसर हो रही यहाँ फूट,
 सीमाएँ कृत्रिम रहीं टूट;
 श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें,
 अपने बल का है गर्व उन्हें;
 नियमों की करनी सृष्टि जिन्हें;
 विप्लव की करनी वृष्टि उन्हें;
 सब पिये मत्त लालसा घूँट,
 मेरा साहस अब गया छूट।

मैं जनपद-कल्याणी प्रसिद्ध,
 अब अवनति कारण हूँ निषिद्ध;
 मेरे सुविभाजन हुए विषम,
 टूटते, नित्य बन रहे नियम;
 नाना केन्द्रों में जलधर सम,
 धिर हट, वरसे ये उपलोपम;

यह ज्वाला इतनी है समिद्ध,
आहुति बस चाह रही समृद्ध।

तो क्या मैं भ्रम में थी नितान्त,
संहार-बन्ध असहाय दान्त;
प्राणी विनाश मुख में अविरल,
चुपचाप चलें होकर निर्वल !
संघर्ष कर्म का मिथ्या बल,
ये शक्ति चिह्न, ये यज्ञ विफल;

भय की उपासना ! प्रणति भ्रान्त !
अनुशासन की छाया अशान्त !

तिस पर मैंने छोना सुहाग,
हे देवि ! तुम्हारा दिव्य राग;
मैं आज अकिंचन पाती हूँ,
अपने को नहीं सुहाती हूँ;
मैं जो कुछ भी स्वर गाती हूँ,
वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ

दो क्षमा, न दो अपना विरागं,
सोई चेतनता उठे जाग।”

“है रुद्र रोष अब तक अशान्त”,
श्रद्धा बोली, “वनं विषम ध्वान्त !

सिर चढ़ी रही ! पाया न हृदय,
 तू विकल कर रही है अभिनय;
 अपनापन चेतन का सुखमय
 खो गया, नहीं आलोक उदय;
 सब अपने पथ पर चले श्रान्त,
 प्रत्येक विभाजन बना श्रान्त ।

जीवन धारा सुन्दर प्रवाह,
 सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह;
 ओ तर्कमयी ! तू गिने लहर,
 प्रतिविम्बित तारा पकड़, ठहर;
 तू रुक रुक देखे आठ पहर,
 वह जड़ता की स्थिति भूल न कर;
 सुख दुख का मधुमय धूप छॉहँ,
 तू ने छोड़ी यह सरल राह !

चेतनता का भौतिक विभाग—
 कर, जग को बाँट दिया विराग;
 चिति का स्वरूप यह नित्य जगत,
 वह रूप बदलता है शत शत;
 कर्ण विरह मिलन मय नृत्य निरत,
 उल्लास पूर्ण आनन्द सतत;

तल्लीन पूर्ण है एक राग,
मंकृत है केवल 'जाग जाग !'

मैं लोक अग्नि में तप नितान्त,
आहुति प्रसन्न देती प्रशान्त;

तू क्षमा न कर कुछ चाह रही,
जलती छाती की दाह रही;
तो ले ले जो निधि पास रही,
मुझको वस अपनी राह रही;

रह सौम्य ! यहीं; हो सुखद प्रान्त,
विनिमय कर दे कर कर्म कान्त ।

तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति,
शासक बन फैलाओ न भीति;

मैं अपने मनु को खोज चली,
सरिता मरु नग या कुंज गली;
वह भोला इतना नहीं छली !
मिल जायेगा, हूँ प्रेम पली;

तब देखूँ कैसी चली रीति,
मानव ! तेरी हो सुयश गीति ।”

बोला बालक “ममता न तोड़,
जननी ! मुझसे मुँह यों न मोड़;

तेरी आज्ञा का कर पालन,
वह स्नेह सदा करता लालन—
मैं मरूँ जिऊँ पर छुटे न प्रन,
वरदान बने मेरा जीवन !

जो मुझको तू यों चली छोड़
तो मुझे मिले फिर यही क्रोड़ !”

“हे सौम्य ! इडा का शुचि दुलार,
हर लेगा तेरा व्यथाभार;
यह तर्कमयी तू श्रद्धामय,
तू मननशील कर कर्म अभय;
इसका तू सब संताप निचय,
हर ले, हो मानव भाग्य उदय;
सब की समरसता कर प्रचार,
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार !”

“अति मधुर वचन विश्वास भूल,
मुझको न कभी ये जायँ भूल;
हे देवि ! तुम्हारा स्नेह प्रबल,
वन दिव्य श्रेय-उद्गम अविरल;
ध्याकर्षण घन सा वितरे जल,
निर्वासित हों संताप सकल”

कह इड़ा प्रणत ले चरण धूल,
पकड़ा कुमार-कर मृदुल फूल ।

वे तीनों ही क्षण एक मौन,
विस्मृत से थे, हम कहाँ; कौन !

विच्छेद वाह्य, था आलिंगन—
वह हृदयों का, अति मधुर मिलन;
मिलते आहत होकर जलकन-
लहरों का यह परिणत जीवन;
दो लौट चले पुर ओर मौन,
जब दूर हुए तब रहे दो न;

निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त
वह था असीम का चित्र कान्त

कुछ शून्य विन्दु उर के ऊपर,
व्यथिता रजनी के श्रमसीकर;
भलके कव से पर पड़े न भर,
गंभीर मलिन छाया भू पर;
सरिता तट तरु का क्षितिज प्रान्त,
केवल विखेरता दीन ध्वान्त ।

शत शत तारा मंडित अनन्त
कुसुमों का स्तवक खिला वसन्त,

हँसता ऊपर का विश्व मधुर,
 हलके प्रकाश से पूरित उर;
 वहती माया सरिता ऊपर,
 उठती किरणों की लोल लहर;
 निचले स्तर पर छाया दुरन्त,
 आती चुपके, जाती तुरन्त।

सरिता का वह एकान्त कूल,
 था पवन हिंडोले रहा भूल;
 धीरे धीरे लहरों का दल,
 तट से टकरा होता ओभल;
 छप छप का होता शब्द विरल,
 थर थर कँप रहती दीप्ति तरल;
 संसृति अपने में रही भूल,
 वह गन्ध विधुर अम्लान फूल।

तब सरस्वती सा फेंक साँस,
 श्रद्धा ने देखा आस पास;
 थे चमक रहे दो खुले नयन,
 ज्यों शिलालम्ब अनगढ़े रतन;
 यह क्या तम में करता सनसन ?
 धारा का ही क्या यह नित्वन !

ना, गुहा लतावृत एक पास,
कोई जीवित ले रहा साँस !

वह निर्जन तट था एक चित्र,
कितना सुन्दर कितना पवित्र ?

कुछ उन्नत थे वे शैल शिखर,
फिर भी ऊँचा श्रद्धा का सिर;
वह लोक अग्नि में तप गल कर,
थी ढली स्वर्ण प्रतिमा बन कर;

मनु ने देखा कितना विचित्र !
वह मातृ मूर्ति थी विश्व मित्र ।

बोले “रमणी तुम नहीं आह !
जिसके मन में हो भरी चाह;

तुमने अपना सब कुछ खोकर,
बंचिते ! जिसे पाया रोकर;
मैं भगा प्राण जिनसे लेकर,
उसको भी, उन सभ को देकर;

निर्दय मन क्या न उठा कराह ?
अद्भुत है तव मन का प्रवाह !

ये श्वापद से हिंसक अधीर,
कोमल शावक वह वाल वीर;

सुनता था वह वाणी शीतल,
 कितना दुलार कितना निर्मल ?
 कैसा कठोर है तव हृत्तल ?
 वह इड़ा कर गई फिर भी छल;
 तुम बनी रही हो अभी धीर,
 छुट गया हाथ से आह तीर !”

“प्रिय ! अब तक हो इतने सशंक,
 देकर कुछ कोई नहीं रंक,
 यह विनिमय है ।या परिवर्तन,
 बन रहा तुम्हारा ऋण अब धन;
 अपराध तुम्हारा वह बंधन—
 लो बना मुक्ति, अब छोड़ स्वजन—
 निर्वासित तुम, क्यों लगे डंक ?
 दो लो प्रसन्न, यह स्पष्ट अंक !”

“तुम देवि ! आह कितनी उदार,
 यह मातृमूर्ति है निर्विकार;
 हे सर्वमंगले ! तुम महती,
 सबका दुख अपने पर सहती;
 कल्याणमयी वाणी कहती,
 तुम क्षमा निलय में हो रहती;

मैं भूला हूँ तुमको निहार,
नारी सा ही ! वह लघु विचार ।

मैं इस निर्जन तट में अधीर,
सह भूख व्यथा तीखा समीर;

हाँ भाव चक्र में पिस पिस कर,
चलता ही आया हूँ बढ़कर;
इनके विकार सा ही बन कर,
मैं शून्य बना सत्ता खोकर;
लघुता मत देखो वक्ष चीर,
जिसमें अनुशय बन घुसा तीर ।”

“प्रियतम ! यह नत निस्तब्ध रात,
है स्मरण कराती विगत वात;

वह प्रलय शान्ति वह कोलाहल,
जब अर्पित कर जीवन संवल;
मैं हुई तुम्हारी थी निश्चल,
क्या भूळूँ मैं, इतनी दुर्बल ?

तब चलो जहाँ पर शान्ति प्रात,
मैं नित्य तुम्हारी, सत्य वात ।

इस देव द्वन्द्व का वह प्रतीक--
मानव ! कर ले सब भूल ठीक;

यह विप जो फैला महा विषम,
 निज कर्मोन्नति से करते सम;
 सब मुक्त बनें, काटेंगे भ्रम,
 उनका रहस्य हो शुभ संयम;
 गिर जायेगा जो है अलीक,
 चल कर मिटती है पड़ी लीक ।”

वह शून्य असत या अंधकार,
 अवकाश पटल का वार-पार;
 बाहर भीतर उन्मुक्त सघन,
 था अचल महा नीला अंजन;
 भूमिका बनी वह सिग्ध मलिन,
 थे निर्निमेष मनु के लोचन;
 इतना अनन्त था शून्य सार,
 दीखता न जिसके परे पार ।

सत्ता का स्पन्दन चला डोल,
 आवरण पटल की ग्रन्थि खोल,
 तम जलनिधि का वन मधु मंथन,
 व्योम्ना सरिता का आलिङ्गन;
 वह रजत गौर, उज्ज्वल जीवन,
 आलोक पुरुष ! मंगल चेतन !

केवल प्रकाश का था कलोल,
मधु किरनों की थी लहर लोल ।

बन गया तमस था अलक जाल,
सर्वांग ज्योतिमय था विशाल;

अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित,
थी शून्य-भेदिनी सत्ता चित्त;
नटराज स्वयं थे नृत्य निरत,
था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित;

स्वर लय होकर दे रहे ताल,
थे लुप्त हो रहे दिशाकाल ।

लीला का स्पन्दित आह्लाद,
वह प्रभा पुञ्ज चित्तिमय प्रसाद;

आनन्द पूर्ण ताण्डव सुन्दर,
भरते थे उज्ज्वल भ्रमसीकर;
बनते तारा, हिमंकर दिनकर,
उड़ रहे धूलि कण से भूधर;

संहार सृजन से युगल पाद—
गतिशील, अनाहत हुआ नाद ।

विखरे असंख्य ब्रह्माण्ड गोल,
युग त्याग ग्रहण कर रहे तोल;

विद्युत् कटाक्ष चल गया जिधर,
 कंपित संसृति बन रही उधर;
 चेतन परमाणु अनन्त विखर,
 बनते विलीन होते क्षण भर

यह विश्व भूलता महा दोल,
 परिवर्तन का पट रहा खोल ।

उस शक्ति शरीरी का प्रकाश,
 सब शाप पाप का कर विनाश—

नर्तन में निरत, प्रकृति गल कर,
 उस कान्ति सिंधु में धुल मिल कर;
 अपना स्वरूप धरती सुन्दर,
 कमनीय बना था भीषणतर;

हीरक गिरि पर विद्युत् विलास,
 उल्लसित महाहिम धवल हास ।

देखा मनु ने नर्तित नटेश,
 हत चेत पुकार उठे विशेष;

“यह क्या ! श्रद्धे ! बस तू ले चल,
 उन चरणों तक, दे निज संवल;
 सब पाप पुण्य जिसमें जल जल,
 पावन बन जाते हैं निर्मल;

मितते असत्य से ज्ञान लेश,
 समरस अखंड आनन्द वेश !

रहस्य

ऊर्ध्व देश उस नील तमस में
स्तब्ध हो रही अचल हिमानी;
पथ थक कर है लीन, चतुर्दिक
देख रहा वह गिरि अभिमानी ।

दोनों पथिक चले हैं कबसे
ऊँचे ऊँचे चढ़ते चढ़ते;
श्रद्धा आगे मनु पीछे थे
साहस उत्साही से बढ़ते ।

पवन वेग प्रतिकूल उधर था
कहता, 'फिर जा अरे बटोही !
किधर चला तू मुझे भेद कर ?
प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही ?'

छूने को अम्बर मचली सी
बढ़ी जा रही सतत उँचाई;
विचलित उसके अंग, प्रगट थे
भीषण खड्ग भयकरी खाँड़ी ।

रवि कर हिम खंडों पर पड़ कर
हिमकर कितने नये बनाता;
द्रुततर चक्रर काट पवन भी
फिर से वहीं लौट आ जाता ।

नीचे जलधर दौड़ रहे थे
सुन्दर सुर-धनु माला पहने;
कुंजर-कलभ सदृश इठलाते
चमकाते चपला के गहने ।

प्रवहमान थे निम्न देश में
शीतल शत शत निर्भर ऐसे;
महाश्वेत गजराज गरुड से
त्रिखरों मधु धारायें जैसे ।

हरियाली जिनकी उभरी, वे
समतल चित्रपटों से लगते;
प्रतिकृतियों के बाह्य रेख से
स्थिर, नद जो प्रतिपल थे भगते ।

लघुतम वे सब जो वसुधा पर
ऊपर महाशून्य का घेरा;
ऊँचे चढ़ने की रजनी का
यहाँ हुआ जा रहा सवेरा ।

“कहाँ ले चली हो अब मुझको
 श्रद्धे ! मैं थक चला अधिक हूँ;
 साहस छूट गया है मेरा
 निस्संबल भग्नाश पथिक हूँ ।

लौट चलो, इस वात-चक्र से
 मैं दुर्बल अब लड़ न सकूँगा;
 श्वास रुद्ध करने वाले इस
 शीत पवन से अड़ न सकूँगा ।

मेरे, हाँ वे सब मेरे थे
 जिन से रुठ चला आया हूँ;
 वे नीचे छूटे सुदूर, पर
 भूल नहीं उनको पाया हूँ ।”

वह विश्वासभरी स्मिति निश्छल
 श्रद्धा मुख पर झलक उठी थी;
 सेवा कर-पल्लव में उसके
 कुछ करने को ललक उठी थी ।

दे अवलंब, विकल साथी को
 कामायनी मधुर स्वर बोली;
 “हम वढ़ दूर निकल आये अब
 करने का अवसर न ठिठोली !

दिशा विकम्पित, फल असीम है
 यह अनंत सा कुछ ऊपर है;
 अनुभव करते हो, बोलो क्या
 पदतल में सचमुच भूधर है ?

निराधार हैं, किन्तु ठहरना
 हम दोनों को आज यहीं है;
 नियति खेल देखूँ न, सुनो अब
 इसका अन्य उपाय नहीं है ।

भौंई लगती जो, वह तुमको
 ऊपर उठने को है कहती;
 इस प्रतिकूल पवन धक्के को
 भौंक दूसरी ही आ सहती ।

श्रांत पक्ष कर नेत्र बंद बस
 विहग युगल से आज हम रहें,
 शून्य, पवन बन पंख हमारे
 हमको दें आधार, जम रहें ।

घबराओ मत ! यह समतल है
 देखो तो, हम कहाँ आ गये”
 मनु ने देखा आँख खोल कर
 जैसे कुछ कुछ त्राण पा गये ।

ऊष्मा का अभिनव अनुभव था
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त थे;
दिवा रात्रि के संधि काल में
ये सब कोई नहीं व्यस्त थे ।

ऋतुओं के स्तर हुए तिरोहित
भू-मंडल रेखा विलीन सी;
निराधार उस महादेश में
उदित सचेतनता नवीन सी ।

त्रिदिक विश्व, आलोक विंदु भी
तीन दिखाई पड़े अलग वे;
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो
वे अनमिल थे किंतु सजग थे ।

मनु ने पूछा, “कौन नये ग्रह
ये हैं, श्रद्धे ! मुझे वचाओ !
मैं किस लोक बीच पहुँचा, इस
इंद्रजाल से मुझे वचाओ ।”

“इस त्रिकोण के मध्य विंदु तुम
शक्ति विपुल समता वाले ये;
एक एक को स्थिर हो देखो
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये ।

वह देखो रागासुण है जो ✓
 ऊषा के कंदुक सा सुंदर;
 छायामय कमनीय कलेवर
 भावमयी प्रतिमा का मंदिर ।

शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की
 पारदर्शनी सुषड पुतलियाँ;
 चारो ओर नृत्य करतीं ज्यों
 रूपवती रंगीन तितलियाँ !

इस कुसुमाकर के कानन के
 अरुण पराग पटल छाया में;
 इठलतीं सोतीं जगतीं ये
 अपनी भाव भरी माया में ।

वह संगीतात्मक ध्वनि इनकी
 कोमल अंगड़ाई है लेती;
 मादकता की लहर उठा कर
 अपना अंधर तर कर देतो ।

आलिंगन सी मधुर प्रेरणा
 छू लेती, फिर सिहरन बनती;
 नव अलम्बुषा की ब्रीड़ा सी
 खुल जाती है, फिर जा मुँदती ।

यह जीवन की मध्य भूमि है
रस धारा से सिंचित होती;
मधुर लालसा की लहरों से
यह प्रवाहिका स्पंदित होती ।

जिसके तट पर विद्युत कण से
मनोहारिणी आकृति वाले;
छायामय सुषमा में विह्वल
विचर रहे सुन्दर मतवाले ।

सुमन संकुलित भूमि रंध्र से
मधुर गंध उठती रस भीनी;
वाष्प अदृश्य फुहारे इसमें
छूट रहे, रस बूँदें भीनीं ।

घूम रही है यहाँ चतुर्दिक् ✓
चल चित्रों सी संसृति छाया;
जिस आलोक विंदु को घेरे
वह बैठो मुसक्याती माया ।

भाव चक्र यह चला रही है
इच्छा की रथ-नाभि घूमती;
नव रस भरों अराएँ अविरल
चक्रवाल को चकित चूमतीं ।

यहाँ मनोमय विश्व कर रहा
 रागारुण चेतन उपासना;
 माया राज्य ! यही परिपाटी
 पाश विद्धा कर जीव फाँसना ।

ये अशरीरी रूप, सुमन से
 केवल वर्ण गंध में फूले;
 इन अप्सरियों की तानों के
 मचल रहे हैं सुन्दर भूले ।

भाव भूमिका इसी लोक की
 जननी है सब पुण्य पाप की;
 ढलते सब, स्वभाव प्रतिकृति वन
 गल ज्वाला से मधुर ताप की ।

नियममयी उलझन लतिका का
 भाव विटपि से आ कर मिलना;
 जीवन वन की वनी समस्या
 आशा नभकुसुमों का खिलना ।

चिर-वसंत का यह उद्गम है
 पतझर होता एक ओर है;
 अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं
 सुख दुख बँधते, एक डोर हैं ।”

“सुन्दर यह तुमने दिखलाया
 कितु कौन वह श्याम देश है ?
 कामायनी ! बताओ उसमें
 क्या रहस्य रहता विशेष है ?”

“मनु यह श्यामल कर्म लोक है
 धुँधला कुछ कुछ अंधकार सा;
 सघन हो रहा अविज्ञात यह
 देश मलिन है धूम धार सा ।

कर्म चक्र सा घूम रहा है
 यह गोलक, बन नियति प्रेरणा;
 सब के पीछे लगी हुई है
 कोई व्याकुल नयी एषणा ।

श्रममय कोलाहल, पीड़नमय
 विकल, प्रवर्तन महायंत्र का;
 क्षण भर भी विश्राम नहीं है
 प्राण दास है क्रिया तंत्र का ।

भाव राज्य के सकल मानसिक
 सुख यों दुख में बदल रहे हैं;
 हिंसा गर्वोन्नत हारों में
 ये अकड़े अणु टहल रहे हैं ।

ये भौतिक सदेह कुछ करके
जीवित रहना यहाँ चाहते;
भाव राष्ट्र के नियम यहाँ पर
दण्ड वने हैं, सब कराहते ।

करते हैं, संतोष नहीं है
जैसे कशाघात प्रेरित से—
प्रति क्षण करते हो जाते हैं
भीति विवश ये सब कंपित से ।

नियति चलाती कर्म चक्र यह
वृष्णा जनित समत्व वासना;
पाणि-पादमय पंचभूत की
यहाँ हो रही है उपासना ।

यहाँ सतत संघर्ष, विफलता
कोलाहल का यहाँ राज है;
अंधकार में दौड़ लग रही
मतवाला यह सब समाज है ।

स्थूल हो रहे रूप बना कर
कर्मों की भीषण परिणति है;
आकांक्षा की तीव्र पिपासा !
ममता की यह निर्मम गति है ।

यहाँ शासनादेश घोषणा
विजयों की हुंकार सुनाती;
यहाँ भूख से विकल दलित को
पदतल में फिर फिर गिरवाती ।

यहाँ लिये दायित्व कर्म का
उन्नति करने के मतवाले;
जला जला कर फूट पड़ रहे
दुल कर वहने वाले छाजे ।

यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब
मरीचिका से दीख पड़ रहे;
भाग्यवान बन क्षणिक भोग के
वे विलीन, ये पुनः गड़ रहे ।

बड़ी लालसा यहाँ सुयश की
अपराधों की स्वीकृति बनती;
अंध प्रेरणा से परिचालित
कर्त्ता में करते निज गिनती ।

प्राण तत्त्व की सघन साधना
जल, हिम उपल यहाँ है बनता;
प्यासे घायल हो जल जाते
मर मर कर जीते ही बनता ।

यहाँ नील लोहित ज्वाला कुछ
जला गला कर नित्य ढालती;
चोट सहन कर रुकने वाली
धातु, न जिसकी मृत्यु सालती ।

वर्षा के घन नाद कर रहे,
सत कूलों को सहज गिराती;
प्लावित करती वन कुंजों को
लक्ष्य प्राप्ति सरिता वह जाती”

“वस ! अब और न इसे दिखा तू
यह अति भीषण कर्म जगत है;
श्रद्धे ! उज्ज्वल कैसा है
जैसे पुञ्जी भूत रजत है ।”

“प्रियतम ! यह तो ज्ञान क्षेत्र है
सुख दुख से है उदासीनता;
यहाँ न्याय निर्मम चलता है
बुद्धि चक्र, जिसमें न दोनता ।

अस्ति नास्ति का भेद, निरंकुश
करते ये अणु तर्क युक्ति से;
ये निस्संग, किंतु कर लेते
कुछ संबंध-विधान मुक्ति से । ✓

यहाँ प्राप्य मिलता है केवल
 तृप्ति नहीं, कर भेद वाँटती;
 बुद्धि, विभूति सकल सिकता सी
 प्यास लगी है ओस चाटती ।

न्याय, तपस, ऐश्वर्य्य में पगे
 ये प्राणो चमकीले लगते;
 इस निदाघ मरु में, सूखे से
 स्रोतों के तट जैसे जगते ।

मनोभाव से काय-कर्म के
 समतोलन में दत्त चित्त से;
 ये निस्पृह न्यायासन वाले
 चूक न सकते तनिक वित्त से ।

अपना परिमित पात्र लिये ये
 वूँद वूँद वाले निर्भर से;
 माँग रहे हैं जीवन का रस
 वैठ यहाँ पर अजर अमर से ।

यहाँ विभाजन धर्म तुला का
 अधिकारों की व्याख्या करता;
 यह निरीह, पर कुछ पाकर ही
 अपनी ढीली साँसें भरता ।

उत्तमता इनका निजस्व है
 अम्बुज वाले सर सा देखो;
 जीवन-मधु एकत्र कर रहीं
 उन समाखियों सा बस लेखो ।

यहाँ शरद की धवल ज्योत्स्ना
 अंधकार को भेद निखरती;
 यह अनवस्था, युगल मिले से
 विकल व्यवस्था सदा विखरती ।

देखो वे सब सौम्य बने हैं ✓
 किंतु सशंकित हैं दोषों से;
 वे संकेत दंभ के चलते
 चालन मिस परितोषों से ।

यहाँ अछूत रहा जीवन रस
 छूओ मत संचित होने दो;
 बस इतना ही भाग तुम्हारा
 तृषा ! मृषा, वंचित होने दो ।

सामंजस्य चले करने के
 किंतु विषमता फैलाते हैं;
 मूल स्वत्व कुछ और बताते
 इच्छाओं को मुठलाते हैं ।

स्वयं व्यस्त पर शांत बने से
 शस्त्र शास्त्र रक्षा में पलते;
 ये विज्ञान भरे अनुशासन
 क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते ।

यही त्रिपुर है देखा तुमने
 तीन बिंदु ज्योतिर्मय इतने,
 अपने केंद्र बने दुख सुख में
 भिन्न हुये हैं ये सब कितने ।

ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है
 इच्छा क्यों पूरी हो मन की;
 एक दूसरे से न मिल सके
 यह विडम्बना है जीवन की ।”

महा ज्योति रेखा सी बनकर
 श्रद्धा की स्मिति दौड़ी उनमें;
 वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा
 जाग उठी थी ज्वाला जिनमें ।

नीचे ऊपर लचकीली वह
 विपम वायु में धधक रही सी;
 महाशून्य में ज्वाल सुनहली,
 सब को कहती 'नहीं नहीं' सी ।

शक्ति तरंग प्रलय पावक का
 उस त्रिकोण में निखर उठा सा;
 शृंग और डमरू निनाद वस
 सकल विश्व में बिखर उठा सा ।

चितिमय चिता धधकती अविरल
 महाकाल का विषम नृत्य था;
 विश्व रंध्र ज्वाला से भर कर
 करता अपना विषम कृत्य था ।

स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो,
 इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे;
 दिव्य अनाहत पर निनाद में
 श्रद्धायुत मन वस तन्मय थे ।

आनंद

चलता था धीरे धीरे
 वह एक यात्रियों का दल;
 सरिता के रम्य पुलिन में
 गिर पथ से, ले निज संबल ।

था सोमलता से आवृत
 वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि;
 घंटा वजता तालों में
 उसकी थी मंथर गति विधि ।

वृष रज्जु वाम कर में था
 दक्षिण त्रिशूल से शोभित;
 मानव था साथ उसी के
 मुख पर था तेज अपरिमित ।

केहरि किशोर से अभिनव
 अवयव प्रस्फुटित हुए थे;
 यौवन गंभीर हुआ था
 जिसमें कुछ भाव नये थे ।

चल रही इड़ा भी वृष के
 दूसरे पार्श्व में नीरव;
 गैरिक वसना संध्या सी
 जिसके चुप थे सब कलरव ।

उल्लास रहा युवकों का
 शिशु गण का था मृदु कलकल;
 महिला मंगल गानों से
 मुखरित था वह यात्री दल ।

चमरों पर बोझ लदे थे
वे चलते थे मिल अविरल;
कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर
अपने ही बने कुतूहल।

माताएँ पकड़े उनको
जाते थीं करती जातीं;
'हम कहाँ चल रहे' यह सब
उनको विधिवत समझातीं।

कह रहा एक था "तू तो
कब से ही सुना रही है—
अब आ पहुँची लो देखो
आगे वह भूमि यही है।

पर बढ़ती ही चलती है
रुकने का नाम नहीं है;
वह तीर्थ कहाँ है कह तो
जिसके हित दौड़ रही है।"

"वह अगला समतल जिस पर
है देवदारु का कानन,
घन अपनी प्याली भरते
ले जिसके दल से हिमकन।

हाँ इसी ढालवें को जब
बस सहज उतर जावें हम;
फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा
वह अति उज्ज्वल पावनतम।”

वह इड़ा समीप पहुँच कर
बोला उसको रुकने को;
बालक था, मचल गया था
कुछ और कथा सुनने को।

वह अपलक लोचन अपने
पादाग्र विलोकन करती;
पथ प्रदर्शिका सी चलती
धोरे धोरे डग भरती।

बोली, “हम जहाँ चले हैं
वह है जगती का पावन—
साधना प्रदेश किसी का
शीतल अति शांत तपोवन।”

“कैसा ? क्यों शांत तपोवन ?
विस्तृत क्यों नहीं बताती”,
बालक ने कहा इड़ा से
वह बोली कुछ सकुचाती।

“सुनती हूँ एक मनस्वी
था वहाँ एक दिन आया;
वह जगती की ज्वाला से
अंति विकल रहा भुलसाया ।

उसकी वह जलन भयानक
फैली गिरि अंचल में फिर;
दावाग्नि प्रखर लपटों ने
कर दिया सघन वन अस्थिर ।

थी अर्धांगिनी उसी की
जो उसे खोजती आयी;
यह दशा देख, करुणा की—
वर्षा दृग में भर लायी ।

वरदान बने फिर उसके
आँसू, करते जग मंगल;
सब ताप शांत होकर वन
हो गया हरित सुख शीतल ।

गिरि निर्भर चले उछलते
छायी फिर से हरियाली;
सूखे तरु कुछ मुसक्याये
फूटी पल्लव में लाली ।

वे युगल वहीं अब बैठे
संस्तुति की सेवा करते;
संतोष और सुख देकर
सब की दुख-ज्वाला हरते।

है वहाँ महा-हृद निर्मल
जो मन की प्यास बुझाता;
मानस उसको कहते हैं
सुख पाता जो है जाता।”

“तो यह वृष क्यों तू यों ही
वैसे ही चला रही है;
क्यों बैठ न जाती इस पर
अपने को थका रही है।”

“सारस्वत नगर निवासी
हम आये यात्रा करने;
यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट
पीयूष सलिल से भरने।

इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को
उत्सर्ग करेंगे जाकर;
चिर मुक्त रहे यह निर्भय
स्वच्छंद सदा सुख पाकर।”

सब सम्हल गये थे आगे
थी कुछ नीची उतराई;
जिस समतल घाटी में, वह
थी हरियाली से दायी।

श्रम, ताप और पथ पीड़ा
क्षण भर में थे अंतर्हित;
सामने विराट धवल नग
अपनी महिमा से विलसित।

उसकी तलहटी मनोहर
श्यामल वृण वीरुध वाली;
नव कुञ्ज, गुहा गृह सुन्दर
हृद से भर रही निराली।

वह मंजरियों का कानन
कुछ अरुण पीत हरियाली,
प्रति पर्व सुमन संकुल थे
छिप गयी उन्हीं में डाली।

यात्री दल ने रुक देखा
मानस का दृश्य निराला;
खग मृग को अति सुखदायक
छोटा सा जगत उजाला।

भरकत की वेदी पर ज्यों
रक्खा हीरे का पानी;
छोटा सा मुकुर प्रकृति का
या सोयी राका रानी ।

दिनकर गिरि के पीछे अब
हिमकर था चढ़ा गगन में;
कैलास प्रदोष प्रभा में
स्थिर बैठा किसी लगन में ।

संध्या समीप आयी थी
उस सर के, वल्कल वसना,
तारों से अलक गुँथी थी
पहने कदंब की रसना ।

खग कुल किलकार रहे थे
कल हंस कर रहे कलरव;
किन्नरियाँ वनी प्रतिध्वनि
लेती थीं तानें अभिनव ।

मनु बैठे ध्यान निरत थे
उस निर्मल मानस तट में;
सुमनों की अंजलि भर कर
श्रद्धा थी खड़ी निकट में ।

श्रद्धा ने सुमन बिखेरा
 शत शत मधुपों का गुञ्जन;
 भर उठा मनोहर नभ में
 मनु तन्मय बैठे उन्मन ।

पहचान लिया था सब ने
 फिर कैसे अब वे रुकते;
 वह देव-द्वंद्व द्युतिमय था
 फिर क्यों न प्रणति में झुकते

तब वृषभ सोम-वाही भी
 अपनी घंटा ध्वनि करता;
 बढ़ चला इड़ा के पीछे
 मानव भी था डग भरता ।

हाँ इड़ा आज भूली थी
 पर क्षमा न चाह रही थी;
 वह दृश्य देखने को निज
 दृग युगल सराह रही थी ।

चिर मिलित प्रकृति से पुलकित
 वह चेतन पुरुष पुरातन;
 निज शक्ति तरंगायित था
 आनंद - अंबु - निधि शोभन ।

भर रहा अंक श्रद्धा का
मानव उसको अपना कर;
था इड़ा शीश चरणों पर
वह पुलक भरी, गद्गद् स्वर—

वोली—“मैं धन्य हुई हूँ
जो यहाँ भूल कर आयी;
हे देवि ! तुम्हारी समता
वस मुझे खींचती लायी ।

भगवति, समझी मैं ! सचमुच
कुछ भी न समझ थी मुझको;
सब को ही भुला रही थी
अभ्यास यही था मुझको ।

हम एक कुटुम्ब बना कर
यात्रा करने हैं आये;
सुन कर यह दिव्य तपोवन
जिसमें सब अघ टुट जाये ।”

मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर
कैलास ओर दिखलाया;
वोले “देखो कि यहाँ पर
कोई भी नहीं पराया ।

हम अन्य न और कुटुम्बी
हम केवल एक हमीं हैं;
तुम सब मेरे अवयव हो
जिसमें कुछ नहीं लमी है।

शापित न यहाँ है कोई
तापित पापी न यहाँ है;
जीवन वसुधा समतल है
समरस है जो कि जहाँ है।

चेतन समुद्र में जीवन
लहरों सा विखर पड़ा है;
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना
निर्मित आकार खड़ा है।

इस ज्योत्स्ना के जलनिधि में
बुद्बुद् सा रूप बनाये;
नक्षत्र दिखायी देते
अपनी आभा चमकाये।

वैसे अभेद सागर में
प्राणों का सृष्टि-क्रम है;
सब में घुल मिल कर रस मय
रहता यह भाव चरम है।

अपने दुख सुख से पुलकित
 यह मूर्त विश्व सचराचर;
 चित्ति का विराट वपु मंगल
 यह सत्य सतत चिर सुन्दर ।

सब की सेवा न पराई
 वह अपनी सुख संसृति है;
 अपना ही अणु अणु कण कण
 द्रव्यता ही तो विस्मृति है ।

मैं का मेरी चेतनता
 सबको ही स्पर्श किये सी;
 सब भिन्न परिस्थितियों की
 है मादक घूँट पिये सी ।

जग ले ऊषा के दृग में
 सो ले निशि की पलकों में ;
 हाँ स्वप्न देख ले सुन्दर
 उलभन वाली अलकों में—

चेतन का साक्षी मानव
 हो निर्विकार हँसता सा;
 मानस के मधुर मिलन में
 गहरे गहरे धँसता सा ।

सब भेद भाव भुलवा कर
 दुख सुख को दृश्य बनाता;
 मानव कह रे! 'यह मैं हूँ'
 यह विश्व नीड़ बन जाता!" ✓

श्रद्धा के मधु अधरों की
 छोटी छोटी रेखाएँ;
 रागारुण किरण कला सी
 विकसीं बन स्मिति लेखाएँ। ✓

वह कामायनी जगत की
 मंगल कामना अकेली;
 थी ज्योतिष्मती प्रफुल्लित
 मानस तट को बन बेली। ✓

वह विश्व चेतना पुलकित
 थी पूर्ण काम की प्रतिमा;
 जैसे गंभीर महा-हृद
 हो भरा विमल जल महिमा।

जिस मुरली के निस्वन से
 यह शून्य रागमय होता;
 वह कामायनी विहँसती
 अग जग था मुखरित होता।

क्षण भर में सब परिवर्तित
 अणु अणु थे विश्व कमल के;
 पिगल पराग से मचले
 आनंद सुधा रस छलके ।

अति मधुर गंधवह वहता
 परिमल बूंदों से सिंचित;
 सुख स्पर्श कमल केसर का
 कर आया रज से रंजित ।

जैसे असंख्य मुकुलों का
 मादन विकास कर आया;
 उनके अछूत अधरों का
 कितना चुंबन भर लाया ।

रुक रुक कर कुछ इठलाता
 जैसे कुछ हो वह भूला;
 नव कनक - कुसुम - रज धूसर
 मकरंद जलद सा फूला ।

जैसे वनलक्ष्मी ने ही
 विखराया हो केसर रज;
 या हेमकूट हिम जल में
 झलकाता परछाईं निज ।

संस्मृति के मधुर मिलन के
उच्छ्वास बना कर निज दल;
चल पड़े गगन आँगन में
कुछ गाते अभिनव भंगल।

वल्लरियाँ नृत्य निरत थीं
त्रिखरीं सुगंध को लहरें;
फिर वेणु रंध्र से उठ कर
मूर्छना कहाँ अब ठहरे।

गूँजते मधुर नूपुर से
मदमाते होकर मधुकर;
वाणी की वीणा ध्वनि सी
भर उठी शून्य में झिल कर।

उन्मद माधव मलयानिल
दौड़े सब गिरते पड़ते;
परिमल से चली नहा कर
काकली, सुमन थे झड़ते।

सिकुड़न कौशेय, वसन की
थी विश्व सुन्दरी तन पर;
या मादन मृदुतम कंपन
छायी संपूर्ण सृजन पर।

सुख सहचर दुःख विदूषक
परिहास पूर्ण कर अभिनय;
सब की विस्मृति के पट में
छिप बैठा था अब निर्भय ।

थे डाल डाल में मधुमय
मृदु मुकुल वने कालर से;
'रस भार प्रफुल्ल सुमन सब
धीरे धीरे से वरसे ।

हिम खंड रश्मि मंडित हो
मणि दीप प्रकाश दिखाता;
जिनसे समीर टकरा कर
अति मधुर मृदंग वजाता ।

संगीत मनोहर उठता
मुरली वजती जीवन की;
संकेत कामना वन कर
वतलाती दिशा मिलन की ।

रश्मियाँ बनी अप्सरियाँ
अंतरिक्ष में नचती थीं;
परिमल का कन कन लेकर
निज रंग-मंच रचती थीं ।

मांसल सी आज हुई थी
हिमवती प्रकृति पाषाणी;
उस लास रास में विह्वल
थी हँसती सी कल्याणी ।

वह चन्द्र किरीट रजत नग
स्पन्दित सा पुरुष पुरातन;
देखता मानसी गौरी,
लहरों का कोमल नर्तन ।

प्रतिफलित हुईं सब आँखें
उस प्रेम ज्योति विमला से;
सब पहचाने से लगते
अपनी ही एक कला से ।

समरस थे जड़ या चेतन
मुन्दर साकार बना था;
चेतनता एक विलसती
आनंद अखंड घना था ।

